



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15--जनवरी 21, 2005, (पौष 25, 1926)  
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15--JANUARY 21 2005 (PAUSA 25, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2005

सं. 29, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, एयर मार्शल एस कृष्णास्वामी प. वि. से. मै., अ.वि.से.मै., वा.मै. एवं बार ए.डी.सी.(6338) उड़ान (पायलट) को एयर चीफ मार्शल के मूल रैंक में 31 दिसम्बर 2001 (अपराह) से वायु सेना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

रंजीत इस्सर  
अतिरिक्त सचिव

के वेतनमान में 1 दिसम्बर 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त करते हैं कि उन्हें इस तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. सरस्वती  
उप सचिव

सं. 30, दिनांक 22 दिसम्बर 2004--रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री प्रशांत कुमार मिश्रा (उत्तर प्रदेश : 72) की नियुक्ति नागर विमानन मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर अनुमोदित किए जाने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 30 नवम्बर 2004 (अपराह) से नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 25 मार्च 2004 के का.ज्ञा. सं. 21/9/2004-सी.एस.1 के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री ए.के. मल्होत्रा को 6500--10,500 रुपए

(थल सेना विभाग)

सं. 31, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना  
विशेष सूची  
ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

परमानन्द द्विवेदी (अब जेसी-449586वाई), 17 जुलाई 2004

विशेष सूची  
मराठा लाईट इन्फैन्ट्री  
नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में  
श्रीकांत उपाध्याय (जेसी-459283एक्स), 17 जुलाई 2004

दिवाकर  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 32, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, यथा संशोधित  
थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सी एच अनुपमा (एम आर-08038वाई) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
अविनाश सीतारामन (एम आर-08039एफ) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
जी लक्ष्मी नायर (एम आर-08040डब्ल्यू) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
पूजा गुप्ता (एम आर-08041वाई) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
शंभू सिंह (एम आर-08042एफ) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
कंचन कुलहारी (एम आर-08044एम) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
विमलेन्दु झा (एम आर-08045पी) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
अतुल सहाय (एम आर-08047ए) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
अनुराग श्रीवास्तवा (एम आर-08048एच) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
धीरज कुमार सराफ (एम आर-08049एल) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
भूपेश गुलेरिया (एम आर-08028पी) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
मनु चोपड़ा (एम आर-08029एक्स) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
भारतीय प्रेरणा (एम आर-08030एम) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
सचेन्द्र बादल (एम आर-08031पी) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
टीना सिंह (एम आर-08032एक्स) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
विप्रा मंगला (एम आर-08033ए) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
विवेन्द्र विक्रम सिंह (एम आर-08034एच) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
आभा कुमारी (एम आर-08035एल) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
शिल्का दुआ (एम आर-08036एन) ए एम सी, 27 फरवरी 2004  
रविशंकर चक्रवर्ती (एम आर-08037डब्ल्यू) ए एम सी, 27 फरवरी 2004

एम श्रीवास्तवा  
मेजर जनरल  
एडी. डीजीएफएमएस

सं. 33, दिनांक 27 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना  
(अल्प सेवा आयोग)  
लै. के पद पर

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग छः मास का समय जो  
कि 20 मार्च 2004 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है।  
उनको उसी दिनांक 20 मार्च 2004 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पांच  
वर्ष के लिये विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया  
जाता है।

एस एस सं.	नाम	आर्म/सर्विस
1	2	3
40527एक्स	पुनीत वेदी	आर्टी
40528ए	सुरेन्द्र सिंह	ए. सी.
40529एच	त्रिभुवन सिंह मनकोटिया	जे. ए. जी.
40530एक्स	प्रशान्त सरकेक	मैक
40531ए	अनिल कुमार शर्मा	ए. डी. ए
40532एच	वीरेन्द्र पठानिया	इन्फैन्ट्री
40533डब्ल्यू	एम. श्याम	इन्फैन्ट्री
40536वाई	ऋषभ सुरी	इन्फैन्ट्री
40537एफ	सिद्धार्थ नेहरा	ए. एस. सी.
40538के	लखपत सिंह	इन्फैन्ट्री
40539एम	शक्ति सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री
40540एफ	प्रभात राय	ए. ओ. सी.
40542एम	वरुन परमार	इन्फैन्ट्री
40543पी	फतेह सिंह	सिगनल
40544एक्स	गौरव सूद	आर्टी
40545ए	जी.आर.एस. राजा	इन्फैन्ट्री
40546एच	सरफराज सिंह संघेडा	इन्फैन्ट्री
40547एल	लिम्बू पारस	इन्फैन्ट्री
40548एन	विक्रान्त पराशर	आर्टी
40549डब्ल्यू	राऊत ऋषिकेश देवीदास	आर्टी
40550एल	नितिन रावत	आर्टी
40551एन	दीपक कुमार राऊत	इन्फैन्ट्री
40552डब्ल्यू	बी. एन. प्रकाश	ई.एम.ई.
40554एफ	रघुनन्दन एस हेगड़े	इन्फैन्ट्री
40555के	कार्तिक आर.	इन्फैन्ट्री
40556एम	गौरव न्योल	ए. सी.
40557पी	शरद त्यागी	ए.ओ.सी.

1	2	3	1	2	3
40558एक्स	संदीप सिंह चावला	आर्टी	40599एफ	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
40559ए	कटारिया मनीष कुमार गगन सिंह	इन्फैन्ट्री	40600एल	सुजीय मजूमदार	मैक
40561एक्स	भारत वर्मा	इंजीनियर	40602डब्ल्यू	लक्ष्मीकान्त आर.	इन्फैन्ट्री
40562ए	अनुभव कंचन	आर्टी	40603वाई	हिमान्शु जोशी	इंजीनियर
40563एच	आर. कोशिक	इन्फैन्ट्री	40604एफ	रमन रैना	ए.सी.
40564एल	कनिष्का वरुआ	इन्फैन्ट्री	40605के	राघवेन्द्र	ए.एस.सी.
40565एन	तुषार चौधरी	ए. एस. सी.	40606एम	रितेश कुमार बजाज	आर्टी
40567वाई	मोहम्मद असलम खान	ए. सी.	40607पी	पित्रे संतोष विनोद	इन्फैन्ट्री
40569के	सनल वी. आर.	इन्फैन्ट्री	40608एक्स	प्रशान्त माने	इन्फैन्ट्री
40570वाई	प्रदीप कुमार शर्मा	आर्टी	40609ए	सागर पीयूष	इन्फैन्ट्री
40571एफ	मिश्रा अखिलेश कुमार ओमप्रकाश	इन्फैन्ट्री	40610पी	मंगेश राना	इन्फैन्ट्री
40573एम	अरविन्द राना	ए. एस. सी.	40611एक्स	मयंक मालवीय	ए. डी. ए.
40574पी	अभिनय डोगरा	इन्फैन्ट्री	40612ए	मनीष मिश्रा	इन्फैन्ट्री
40575एल	सुब्रत मिश्रा	मैक	40613एच	प्रियतोष अनिल मंगरूलकर	ई.एम.ई.
40576ए	डी. श्रीरामकुमार	आर्टी	40614एल	अशोक कुमार पुरी	आर्टी
40577एच	मनीष कुमार	आर्टी	40615एन	यादव राहुल अंकुश	आर्टी
40578एल	चरनदीप सिंह मैनी	इन्फैन्ट्री	40616डब्ल्यू	आशिक हुसैन	आर्टी
40579एन	दीपक कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री	40617वाई	अवेसन जैकोव	ई.एम.ई.
40580एच	सागर छेत्री	इन्फैन्ट्री	40618एफ	संदीप जोशी	इन्फैन्ट्री
40581एल	दीपक मोहराना	इन्फैन्ट्री	40620वाई	कपिल कश्यप	इन्फैन्ट्री
40582एन	के. राकेश सिंह	ए. एस. सी.	40621एफ	मोहित	ए.ओ.सी.
40583डब्ल्यू	विपलव	इन्फैन्ट्री	40622के	शौकत अली सैय्यद	ई.एम.ई.
40584वाई	कमल गौतम	ए. डी. ए.	40623एम	मनीष चौहान	आर्टी
40585एफ	गोखले अमरेन्द्र अनन्त	इन्फैन्ट्री	40624पी	अभिनव पाण्डे	इन्फैन्ट्री
40586के	राहुल वर्मा	आर्टी	40625एक्स	मुखर्जी देवजीत चंचल	जे. ए. जी.
40587एम	हिमान्शु नेगी	इन्फैन्ट्री	40626ए	चिन्खोथांग टोनसिंग	इन्फैन्ट्री
40588पी	सौरव जश	ए. ओ. सी.	40627एच	मौ. सादिक नवील हाशमी	ए.ए.पी.सी.
40589एक्स	महेश के. एन.	सिगनल	40628एल	प्रशान्त एस. पित्तलई	इन्फैन्ट्री
40590एम	के. आर. बेनी कृष्णन	इन्फैन्ट्री	40629एन	गुरमीत रतूरी	इन्फैन्ट्री
40591पी	पीयूष चौहान	इन्फैन्ट्री	40630एच	मनीष कुलहरो	इन्फैन्ट्री
40592एक्स	यू. सचिन	ए. सी.	40631एल	कुनाल परमार	आर्टी
40593ए	मनु वशिष्ठ	ए. ओ. सी.	40632एन	अमित प्रसाद	आर्टी
40594एच	नीरज पाण्डे	इन्फैन्ट्री	40633डब्ल्यू	भगोरथ सिंह जोधा	इन्फैन्ट्री
40595एल	एस. वी. रामसुन्दर	आर्टी	40634वाई	दोदुल रॉय	आर्टी
40596एन	अनुज शर्मा	इन्फैन्ट्री	40635एफ	शमिन्द्र एस. माना	ए.सी.
40597डब्ल्यू	भट्ट हेमल योगेश	ए. एस. सी.	40636के	अमन सिंह जयवाल	ए. डी. ए.
40598वाई	मनीष जटराना	इन्फैन्ट्री	40637एम	मनप्रीत सिंह मारवाहा	इन्फैन्ट्री

1	2	3
40638पी	कुलकर्णी प्रशान्त कमलकान्त	आर्टी
40640एम	अमोल केसर	ए. एस. सी.
40642एक्स	अनुराग जुयाल	इन्फैन्ट्री
40643ए	महेश नारायण रामचन्द्रन	ई. एम. ई.
40644एच	सी. जिद्दीन	इन्ट
40645एल	अश्वनी कुमार झा	इन्फैन्ट्री
40646एन	आरूप मुखर्जी	इंजीनियर
40648वाई	बालगोपाल सी.	इन्फैन्ट्री
40649एफ	अतुल मेहता	ए. डी. ए.
40650डब्ल्यू	विकास कुमार पाण्डे	सिगनल
40651वाई	करनजीत सिंह बरार	ए. सी.
40652एफ	सत्येन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
40653के	अमल कुमार	इन्फैन्ट्री
40654एम	एस. विश्वनाथन	इन्फैन्ट्री
40655पी	सुधीर कालिया	मैक
40656एक्स	सनवीर सिंह कीर	आर्टी
40658एच	धीरंजय ज्येश धर्मवीर	आर्टी
40659एल	शशी कुमार टोकास	ए.एस.सी.
40661एच	देशपाण्डे हेमन्त सुधीर	इन्फैन्ट्री
40662एल	विशाल बासदेव	इन्फैन्ट्री
40663एन	अभिषेक यादव	ए.एस.सी.
40664डब्ल्यू	सिंह सुभाष उमाशंकर	इन्फैन्ट्री
40665वाई	विवेक रावत	इन्फैन्ट्री
40666एफ	गौतम पुरी	ए.ओ.सी.
40667के	रतीश कुमार ए.	इन्फैन्ट्री
40668एम	अभिनव सन्धू	इंजीनियर
40669पी	गौरव त्रिवेदी	ए.डी.ए.
40670के	अभिषेक जोशी	आर्टी
40671एम	मदन कुमार टी.	ई.एम.ई.
40673एक्स	बृज नारायण सिंह	आर्टी
40674ए	गौरव जोशी	इन्फैन्ट्री
40675एच	रोहित सांगवान	ए. सी.
40676एल	अभिषेक श्रीवास्तवा	इन्फैन्ट्री
40677एन	गगनदीप सिंह लाम्बा	ए.एस.सी.
40678डब्ल्यू	सुनील वी.वी.	इन्फैन्ट्री

1	2	3
40679वाई	मनीष कुमार श्रीवास्तवा	मैक
40680एन	अमरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	इन्फैन्ट्री
40681डब्ल्यू	गौरव तोमर	आर्टी
40682वाई	शक्ति तहलान	ए.ओ.सी.
40683एफ	रूपक गुप्ता	इन्फैन्ट्री
40684के	अभिनय शर्मा	इन्फैन्ट्री
40685एम	राहुल सिंह विश्नोई	इन्फैन्ट्री
40686पी	मनीष चन्द्रा राय	इन्फैन्ट्री
40687एक्स	चन्द्र मोहन उनियाल	आर्टी
40690एक्स	जफरूल करीम	इन्फैन्ट्री
40692एच	कश्यप एम. ए.	ए.सी.
40693एल	सिद्धार्थ सिंह	इन्फैन्ट्री

अरविन्द कुमार  
मेजर  
उप सह सेना सचिव 8वी

सं. 34, दिनांक 22 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में सेना क्रय संगठन के मुख्य क्रय निदेशक ब्रिगेडियर डी.एस. नेहरा (आई सी-24601) की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो और आगे बढ़ाते हैं।

वी. सरस्वती  
उप सचिव

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं. 35, दिनांक 23 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 25.08.2004 से 23.02.2005 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं :--

सर्वश्री मान सिंह, भजन लाल, टी एन मोंगिया, डी.वी. आर्या, हेत प्रकाश, डी एन प्रभाकर, एस के कर्दम, एन के आहूजा, पी एल मेन्दीरता, मामन चन्द, बी पी सिंह, वी के दास, एन सी साहू, मोहन लाल, एस बनर्जी, वेद प्रकाश, डी एस शौकीन, एन एस मदान, रूप चन्द, महावीर सिंह, रघुवंस बिहारी, यू एस भिन्डवार, एस के तुगनैत, खुशाल चन्द, डी के प्रसाद, श्रीमती विद्या कटारिया, रमेश चन्द, डी के भूयानी, जी सी थपलियाल, कैलाश चन्द, चन्दर प्रकाश, टी टॉन सिंह,

श्रीमती स्मिता आहूजा, रविन्द्र साह, माम चन्द, आर के साहनी, नरायण सिंह, जी सी कंसल, रिछपाल सिंह, जे पी मीणा, वाई सी बजाज, वी पी अरोड़ा, जे एल लूथरा, भगवान सहाय, आर एन ठाकुर।

ये नियुक्तियाँ पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

-----  
सेना शाखा

सं. 36, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की परखावधि पूरी होने पर स्थायी करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

लेफ्टि (अब कप्तान) परीक्षीत सिंह चौहान (एम आर-07646एन) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) सैयद असिफ हाशमी (एम आर-07537एफ) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) संजय कुमार धर (एम आर-07547एल) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) (कु) मनीषा अग्रवाल (एम आर-07541के) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) जी मोहन राघव (एम आर-07647डब्ल्यू) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) सुधीर कुमार सिंह (एम आर-07650डब्ल्यू) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) वीशन देव सिंह जामवाल (एम आर-07731डब्ल्यू) ए एम सी, 29 अप्रैल 2002

लेफ्टि (अब कप्तान) कोथुरी चन्द्रिका प्रसाद (एम आर-07756एच) ए एम सी, 29 अप्रैल 2002

लेफ्टि (अब कप्तान) संतोष कुमार (एम आर-07421एल) ए एम सी, 11 मार्च 2000

लेफ्टि (अब कप्तान) मीनाक्षी राय (एम आर-07651वाई) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) प्रफुल्ल शर्मा (एम आर-07540एफ) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) सरला एम (एम आर-07550एल) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) रितु ग्रवाल (एम आर-07730एन) ए एम सी, 29 अप्रैल 2002

लेफ्टि (अब कप्तान) संतोष कराडे (एम आर-07562ए) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) विजय कुमार शर्मा (एम आर-07563एम) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) विवेक कुमार सिंह (एम आर-07567वाई) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) प्रवीन कुमार दहिया (एम आर-07569के) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) वाका राजा सेखर रेड्डी (एम आर-07571एफ) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) बी राजेन्द्र प्रसाद (एम आर-07575एक्स) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) मुकुल बाजपेयी (एम आर-07635एफ) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) सैयद मोह आदिल (एम आर-07641पी) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) शमरेश कुमार सिंह (एम आर-07642एक्स) ए एम सी, 14 अगस्त 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) शशी कुमार (एम आर-07480एक्स) ए एम सी, 09 अगस्त 2000

लेफ्टि (अब कप्तान) राजीव चुघ (एम आर-07528ए) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) सैकत भट्टाचार्यजी (एम आर-07529एच) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) कु प्रीमा सिन्हा (एम आर-07530एक्स) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) रिशोकेश दीपक साने (एम आर-07531ए) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) प्रकाश नारायण गुप्ता (एम आर-07533एल) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) कु सरुजना डी (एम आर-07536वाई) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) समरजीत सिंह (एम आर-07554एफ) ए एम सी, 07 मार्च 2001

लेफ्टि (अब कप्तान) इन्दरमनी पाण्डे (एम आर-07569पी) ए एम सी, 07 मार्च 2001

एम श्रीवास्तवा  
मेजर जनरल  
एडी डीजीएफएमएस

## थल सेना विभाग

सं. 37, दिनांक 27 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन में पक्का करते हैं :--

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
(अल्पकालीन कमीशन)  
स्थायीकरण

डी एस-12099एन कैप्टन सिरी एन जी कृष्ण कुमार नायर, 10 अप्रैल 2003

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

सं. 38, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
इन्फैन्ट्री  
मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-216368डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार रविन्द्रन सिंह (जेसी-216443पी), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-418003के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार माधो प्रसाद (जेसी-418212एफ), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दिलीप कुमार मिश्रा (जेसी-418942एम), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार सालुके सुरेश शामराव (जेसी-419130एल), 01 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आझाद सिंह (जेसी-418716पी), 18 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम रतन प्रसाद (जेसी-418836एन), 18 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अन्तर सिंह (जेसी-418837डब्ल्यू), 18 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रताप (जेसी-418995एल), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार केशर सिंह (जेसी-419011पी), 20 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दुर्गा सिंह (जेसी-419025पी), 27 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-419149के), 24 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मुन्ना सिंह परिहार (जेसी-419219एक्स), 22 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हेम सिंह (जेसी-419268ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-418838वाई), 18 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दरबान सिंह (जेसी-419376के), 21 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार केशव देव (जेसी-419225एल), 11 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सते सिंह (जेसी-419395पी), 21 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जेसी-419469वाई), 25 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवी सिंह राणा (जेसी-419503एन), 21 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सो नागराजन (जेसी-419035वाई), 18 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सम्पूर्णानन्द (जेसी-419076एच), 01 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-419132डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-419193एन), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार जय कृष्ण (जेसी-419296एम), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार विजय तिवारी (जेसी-419323एल), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार अयोध्या प्रसाद सिंह (जेसी-419365एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राजे सिंह (जेसी-419442एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार पृथ्वी राज (जेसी-419506एफ), 10 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुरदास राम चोनोरिया (जेसी-419507के), 09 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-418784एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-419077एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-419102वाई), 06 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-419106पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राम निवास गुरजर (जेसी-419194डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार ठाकुर (जेसी-419203एम), 04 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुलभुषण सिंह (जेसी-419210एच), 04 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहमद सादिक (जेसी-419229एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-419271ए), 06 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सतबीर सिंह दुहान (जेसी-419283पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सत्यावीर सिंह (जेसी-419288एन), 03 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सानु सी वी (जेसी-419297पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुजोय कुमार महोती (जेसी-419298एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार प्रेम सिंह राठौर (जेसी-419320एक्स), 05 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार छत्तर पाल सिंह (जेसी-419345के), 06 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सरूप सिंह (जेसी-419352ए), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-419356डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार कुंडले (जेसी-419405एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-419436एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार धनो राम वर्मा (जेसी-419508एम), 05 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलदेव राज (जेसी-419546एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कुशल सिंह (जेसी-419617वाई), 05 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-419638पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार अशोक राज शर्मा (जेसी-419654एम), 05 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

कवचित कोर  
नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार वी शनमुगम (सं. 1074865एक्स अब जेसी-240734एन),  
16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार टी उदय कुमार (सं. 1066881ए अब जेसी-240783डब्ल्यू),  
27 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार पोल शहाजी सम्पत (सं. 1070107एच अब जेसी-  
240785एफ), 13 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

दफादार धर्मवीर सिंह (सं. 1065966के अब जेसी-240795एल),  
08 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार महावीर प्रसाद (सं. 1069478वाई अब जेसी-240798वाई),  
14 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद शफीक (सं. 1068793एच अब जेसी-240799एफ),  
08 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार आर डेविड (सं. 1067775एन अब जेसी-240804एफ),  
17 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार ध्रुव सिंह चौहान (सं. 1070206एल अब जेसी-240806एम),  
25 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार सुरेश सिंह (सं. 1069991ए अब जेसी-240809ए), 15 अगस्त  
2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार राकेश कुमार (सं. 1067468डब्ल्यू अब जेसी-240814एल),  
26 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार शिव सिंह (सं. 1059492एक्स अब जेसी-240843ए),  
16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1999 से दी जाती है)

दफादार एस नट्याजा सुंदरम (सं. 1067769ए अब जेसी-240849एफ),  
16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार धर्मादासन पी एन (सं. 1069713एम अब  
जेसी-240850डब्ल्यू), 21 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार उदयभान सिंह (सं. 1070029डब्ल्यू अब जेसी-240851वाई),  
21 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार दुबे (सं. 1069428एन अब  
जेसी-240852एफ), 17 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार राज बहादुर (सं. 1066610एन अब जेसी-240853के),  
18 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार वैलु डी (सं. 1070404डब्ल्यू अब जेसी-240854एम),  
21 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार गडकरी सयाजी राम चन्द्र (सं. 1068897के अब  
जेसी-240856एक्स), 16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार विनोद कुमार सिंह (सं. 1069981डब्ल्यू अब  
जेसी-240858एच), 23 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार सतीश कुमार जी (सं. 1069160एफ अब जेसी-240859एल),  
16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)



दफादार ब्रज राज (सं. 1071209एल अब जेसी-240861एच),  
17 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार रामु राम राइका (सं. 1072137वाई अब जेसी-240862एल),  
20 अगस्त 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार राम निवास (सं. 1074077एन अब जेसी-240866एफ),  
01 सितम्बर 2004

दफादार रणजीत सिंह (सं. 1070559एल अब जेसी-240867के),  
01 सितम्बर 2004

दफादार रविन्द्र कुमार सिंह (सं. 1070094डब्ल्यू अब  
जेसी-240868एम), 01 सितम्बर 2004

दफादार सुख राम पाल चौहान (सं. 1070070एम अब  
जेसी-240869पी), 01 सितम्बर 2004

दफादार दर्शन सिंह (सं. 1069728पी अब जेसी-240873एक्स),  
04 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

दफादार ब्रज सुंदर नेहरा (सं. 1069354के अब जेसी-240874ए),  
01 सितम्बर 2004

दफादार राजेन्द्र सिंह बाघेल (सं. 1071550एच अब जेसी-240875ए),  
01 सितम्बर 2004

दफादार विनायक चव्हाण (सं. 1066900ए अब जेसी-240876एल),  
02 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

दफादार रूप वर्सत (सं. 1076925ए अब जेसी-240881डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2004

जोश थोमस  
अवर सचिव

-----  
नियमित सेना  
सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 39, दिनांक 22 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं।

सूबेदार लिपिक (जी.डी.)

नायब सूबेदार चन्द्र मणी भूषण (जेसी-641421पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार बिमलेन्दु भट्टाचार्य (जेसी-641274एक्स), 06 सितम्बर  
2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राधा कृष्णन नमबुदरी कुम्भा निलथा (जेसी-  
641422एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रमेश पान्डे (जेसी-641424एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार अभिमन्यु बहादुर सिंह (जेसी-641425एल), 01 जुलाई  
2004

नायब सूबेदार मुरलीधरन नायर के (जेसी-641426एन), 10 सितम्बर  
2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रशान्ता राय (जेसी-641427डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गोपाल सिंह यादव (जेसी-641428वाई), 01 जुलाई  
2004 \*

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-641430डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-641432एफ), 01 अगस्त  
2004 \*

नायब सूबेदार गिरधर सिंह कुशवाह (जेसी-641433के), 01 अक्टूबर  
2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार तपन कुमार साहा (जेसी-641435पी), 11 सितम्बर  
2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद खरवर (जेसी-641437ए), 01 सितम्बर  
2004

नायब सूबेदार हरीहर चौधरी (जेसी-641440ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार सुख लाल (जेसी-641436एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार सुबोध कुमार सिंह (जेसी-641308ए), 01 अक्टूबर  
2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
22 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-641513पी), 01 अक्टूबर 2004

आर. चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सं. 40, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

(नियमित सेना)

इन्फैन्ट्री

मद्रास रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजयन के के (जेसी-182830ए), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार कन्नय्या एम (जेसी-205085पी), 01 जून 2004

सूबेदार सोमनाथन एन वी (जेसी-201000डब्ल्यू), 01 जून 2004

सूबेदार बेवेरा त्रिनादम (जेसी-219661वाई), 01 जून 2004

सूबेदार एस पी मथियल्लगन (जेसी-194551डब्ल्यू), 25 अगस्त 2004

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) जार्ज ब्रिट्टो (जेसी-438751वाई), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार (क्लर्क) राजेन्द्रन नायर एस (जेसी-438752एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुधाकरन एम (जेसी-438760ए), 14 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) कुमार आर (जेसी-438784के), 01 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर (संगीतकार) के रैंक में

सूबेदार (संगीतकार) कुन्हीकन्नन सी के (जेसी-438465एक्स), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार राधाकृष्ण पिल्लै वी पी (जेसी-438904एक्स), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार अम्बोली कालाधरन ए (जेसी-438907एल), 03 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार ओमकार रेड्डी (जेसी-438906एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार महारुद्रय्या कल्लमत (जेसी-438928एफ), 07 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) मुकुन्दन पांगत (जेसी-438787एक्स), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुब्रमणियन वी (जेसी-438788ए), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) वी जोसफ डेनियल (जेसी-438789एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सोमराजन (जेसी-438903पी), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार मंदिकुरति हनीफ साहब (जेसी-438929के), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार डी सुधाकरन (जेसी-438816एफ), 06 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार राजीव वी बी (जेसी-438915के), 16 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार के गुणाशेगेरन (जेसी-438819पी), 21 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार एन वैकटैया (जेसी-438823एक्स), 23 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार केवैलायुदम (जेसी-438982पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार सुजान एम (जेसी-439034एक्स), 11 मई 2004

नायब सूबेदार सुरेन्द्रन सी (जेसी-438983एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार संजीव कुमार एम जी (जेसी-438748वाई), 08 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार भेमीनैनी शंकर नायडू (जेसी-439145पी), 14 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार परमेश्वर राजन जी (जेसी-438849एम), 29 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एस सामनन (जेसी-438948पी), 23 जून 2004

नायब सूबेदार के सुब्बुराज (जेसी-439156एफ), 02 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सीनिवासन वी (जेसी-438952एक्स), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार विवेकानंदन वी (जेसी-439020एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार ए सावरोनाथन (जेसी-439031के), 03 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जॉन के जे (जेसी-548566एन), 17 जून 2004

नायब सूबेदार सुबैया देवराज (जेसी-438896के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार देवराज एम (जेसी-438944वाई), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार प्रेमराजन पी (जेसी-438916एम), 10 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार के रामा चन्द्रन नायर (जेसी-439158एम), 10 जुलाई 2004

नायब सूबेदार बाबू एस (जेसी-439021ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पी रमेश (सं. 2591208एच अब जेसी-439392एच), 17 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार राजगोपालन ई (सं. 2585201एच अब जेसी-439418एम), 06 अप्रैल 2004

हवलदार प्रेमराजन पी (सं. 2584154के अब जेसी-439422पी), 05 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार रामन एन (सं. 2586363ए अब जेसी-439424ए), 22 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार नंदा कुमार सी (सं. 2883615पी अब जेसी-439406एक्स), 01 जून 2004

हवलदार सुनिल बाबू जी (सं. 2883921के अब जेसी-439416एफ), 16 जून 2004

हवलदार राजवेल के (सं. 2590200के अब जेसी-439419पी), 01 जुलाई 2004

हवलदार मिनिन रोडरिथ्स (सं. 2585668एन अब जेसी-439421एम), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क के रैंक में

हवलदार/क्लर्क चन्द्रन यू (सं. 2588505एल अब जेसी-439407ए), 09 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार/क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क शशिकान्त पान्डे (सं. 2588622डब्ल्यू अब जेसी-439409एल), 05 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार/क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क दिनेश सिंह (सं. 2588734डब्ल्यू अब जेसी-439410ए), 01 जुलाई 2004

हवलदार/क्लर्क मोहन प्रसाद (सं. 2588735वाई अब जेसी-439411एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार/क्लर्क बिनय कुमार सिंह (सं. 2588738एम अब जेसी-439412एल), 04 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार/क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क अनिल कुमार (सं. 2588739पी अब जेसी-439413एन), 01 जुलाई 2004

दि राजपूत रेजिमेन्ट  
 सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर शिव कुमार सिंह एस.एम. (जेसी-205548वाई), 05 अगस्त 2001

सूबेदार मेजर रमेश सिंह (जेसी-208323एफ), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार मेजर ब्रज भान सिंह (जेसी-220942एफ), 01 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर नरपत सिंह (जेसी-185750एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर ललीता प्रसाद सिंह (जेसी-478027एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार मेजर भूर सिंह (जेसी-478038के), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर धर्म पाल (जेसी-212595वाई), 24 जून 2004

सूबेदार मेजर राजेश कुमार सिंह (जेसी-203672एफ), 01 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर उदमी राम (जेसी-478104एफ), 01 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर सत पाल सिंह (जेसी-205893एम), 07 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर लिपिक के रूप में

सूबेदार मेजर लिपिक रामजी लाल बुनकर (जेसी-216820ए), 01 अगस्त 2004

सूबेदार मेजर लिपिक प्रकाश चन्द्र राना (जेसी-220176डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक महेन्द्र सिंह (जेसी-478635वाई), 01 जुलाई 2004

सूबेदार लिपिक अरुन कुमार शर्मा (जेसी-478636एफ), 01 जुलाई 2004

सूबेदार लिपिक लाल चन्द (जेसी-478674एक्स), 01 अगस्त 2004

सूबेदार लिपिक राज कुमार पाण्डेय (जेसी-478675ए), 01 अगस्त 2004

सूबेदार लिपिक शितला बक्श सिंह (जेसी-478676एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार लिपिक मदन सिंह (जेसी-478687पी), 01 अगस्त 2004

सूबेदार के रूप में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-478728एन), 01 फरवरी 2003

सूबेदार दीवान सिंह (जेसी-479063पी), 01 अगस्त 2003

सूबेदार अमर चन्द (जेसी-478723पी), 01 सितम्बर 2003  
 सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-479113पी), 01 सितम्बर 2003  
 सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-478964पी), 01 अक्टूबर 2003  
 सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-478965एक्स), 08 अक्टूबर 2003  
 सूबेदार समय सिंह (जेसी-478807एच), 01 नवम्बर 2003  
 सूबेदार जग राम (जेसी-478827डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003  
 सूबेदार देवी सिंह (जेसी-478747वाई), 01 दिसम्बर 2003  
 सूबेदार देवी सिंह राजपूत (जेसी-479116एच), 01 दिसम्बर 2003  
 सूबेदार धर्मपाल (जेसी-478767एच), 01 जनवरी 2004  
 सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-478923एल), 01 जनवरी 2004  
 सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-478928के), 01 जनवरी 2004  
 सूबेदार रूप चन्द (जेसी-478818पी), 05 जनवरी 2004  
 सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-478671के), 18 जनवरी 2004  
 सूबेदार प्रदीप देव नाथ (जेसी-478673पी), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार अयोध्या प्रसाद दिवेदी (जेसी-478752के), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-478828वाई), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार माडू राम (जेसी-478863एफ), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-478967एच), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-478977एम), 01 फरवरी 2004  
 सूबेदार राना प्रताप सिंह (जेसी-479053एल), 25 फरवरी 2004  
 सूबेदार दील शाद (जेसी-479003ए), 01 मार्च 2004  
 सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479005एल), 01 मार्च 2004  
 सूबेदार इन्द्र पाल सिंह (जेसी-478804पी), 13 मार्च 2004  
 सूबेदार बल राज (जेसी-479069डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004  
 सूबेदार मवासी राम (जेसी-478810एच), 01 मई 2004  
 सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-478993के), 01 मई 2004  
 सूबेदार इन्द्र राज सिंह (जेसी-478376के), 20 मई 2004  
 सूबेदार सन्त राम (जेसी-478924एन), 01 जून 2004  
 सूबेदार जगदीश (जेसी-478938एन), 01 जून 2004  
 सूबेदार सूरज सिंह (जेसी-479029पी), 01 जून 2004  
 सूबेदार जीत सिंह (जेसी-478872एच), 01 जुलाई 2004  
 सूबेदार राम करन (जेसी-479035एच), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक हरी पाल सिंह (सं. 2983988एक्स अब जेसी-479429एफ), 01 अगस्त 2004

हवलदार लिपिक राम मेहर सिंह (सं. 2984006एम अब जेसी-479430डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार लिपिक पूरन मल (सं. 2977271ए अब जेसी-479431वाई), 01 अगस्त 2004

हवलदार लिपिक इन्द्रवीर सिंह (सं. 2983862एक्स अब जेसी-479432एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार चत्र राम (सं. 2984584एफ अब जेसी-479433के), 14 मार्च 2004

हवलदार गजराज सिंह (सं. 2985183वाई अब जेसी-479434एम), 19 अगस्त 2004, ज्येष्ठता 01 जून 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार बसीम खान (सं. 2980529एन अब जेसी-479435पी), 27 जून 2004

हवलदार बीर सिंह (सं. 2981235एम अब जेसी-479436एक्स), 28 जून 2004

हवलदार घन श्याम सिंह (सं. 2981654के अब जेसी-479437ए), 12 अगस्त 2004, ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार तूसी राम (सं. 2985187पी अब जेसी-479438एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार देवी सिंह (सं. 2983057एन अब जेसी-479439एल), 05 अगस्त 2004, ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार सूरज मल गूजर (सं. 2985635डब्ल्यू अब जेसी-479440ए), 01 जुलाई 2004

हवलदार राजा सिंह (सं. 2982178एच अब जेसी-479441एच), 19 जुलाई 2004, ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार जती राम गूजर (सं. 2983279एच अब जेसी-479442एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार रमेश चन्द्र घोश (सं. 2988919एल अब जेसी-479743एन), 04 जुलाई 2004

हवलदार अजय अदक (सं. 2989104डब्ल्यू अब जेसी-479444डब्ल्यू), 27 जुलाई 2004

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 2980592एच अब जेसी-479445वाई), 01 अगस्त 2004

हवलदार सलीम अन्सारी (सं. 2979580डब्ल्यू अब जेसी-479446एफ), 01 अगस्त 2004

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 2980045एन अब जेसी-479447के), 01 अगस्त 2004

हवलदार राम प्रसाद (सं. 2979579एम अब जेसी-479448एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार जय किशन (सं. 2980974एम अब जेसी-479449पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार कुमार सिंह (सं. 2981692ए अब जेसी-479450के),  
01 अगस्त 2004

हवलदार शीश राम (सं. 2985252के अब जेसी-479451एन),  
01 अगस्त 2004

हवलदार राम अवतार गूजर (सं. 2982088एफ अब जेसी-479452पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार बाबू लाल गूजर (सं. 2982988एल अब जेसी-479453एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 2985660पी अब जेसी-479454ए),  
04 अगस्त 2004

(ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 7431137एच अब जेसी-479455एच),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रमेश कुमार (सं. 2983409ए अब जेसी-479456एल),  
01 अगस्त 2004

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 2980944पी अब जेसी-479457एन),  
18 अगस्त 2004

हवलदार कनबल सिंह (सं. 2979030वाई अब जेसी-479458डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2984684एम अब जेसी-479459वाई),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं. 2982576के अब जेसी-479460एन),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार नूर मोहम्मद (सं. 2980530एन अब जेसी-479461डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार राज पाल सिंह (सं. 2981442वाई अब जेसी-479462वाई),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 2982613एम अब जेसी-479463एफ),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार जय माल सिंह (सं. 2986073डब्ल्यू अब जेसी-479464के),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार मन मोहन सिंह (सं. 2980235ए अब जेसी-479465एम),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार तपन सरकार (सं. 2983141पी अब जेसी-479466पी),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार शेर सिंह (सं. 2979690डब्ल्यू अब जेसी-479467एक्स),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार सत्य भान सिंह (सं. 2982849एफ अब जेसी-479468ए),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार सत्यवीर (सं. 2979693के अब जेसी-479469एच),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार हरी शंकर सिंह चौहान (सं. 2982189पी अब जेसी-  
479470एक्स), 01 सितम्बर 2004

हवलदार सवाई सिंह गूजर (सं. 2979223वाई अब जेसी-  
479471ए), 01 सितम्बर 2004

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 2980111एल अब जेसी-479472एच),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह गौर (सं. 2981129एन अब जेसी-479473एल),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार भैंसर सिंह (सं. 2979494डब्ल्यू अब जेसी-479474एन),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार गदा राम गूजर (सं. 2986038एन अब जेसी-479475डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 2982469एच अब जेसी-479476वाई),  
01 सितम्बर 2004

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जाधव विष्णु राजाराम (सं. 2783180एच अब जेसी-  
459377पी), 22 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

हवलदार हुले गंगाराम तायप्पा (सं. 2777639एन अब जेसी-  
459378एक्स), 12 अगस्त 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

हवलदार धुले रमेश गंगाराम (सं. 2786767एम अब जेसी-459379ए),  
07 अगस्त 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 मार्च 2004 से दी जाती है।)

हवलदार दिलीप रघुनाथ झांबरे (सं. 2779157एक्स अब जेसी-  
459380पी), 24 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार धरमो विजय बाबु (सं. 2781409एक्स अब जेसी-  
459381एक्स), 14 अगस्त 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार तावने नंदकिशोर कमन्नाथ (सं. 2783529पी अब जेसी-459382ए), 27 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार तावटे ज्ञानदेव तुकाराम (सं. 2780949के अब जेसी-459383एच), 06 अगस्त 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार बलराम बेलगांवकर (सं. 2785595डब्ल्यू अब जेसी-459384एल), 21 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील विलास शामराव (सं. 2777221एल अब जेसी-459385एन), 20 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2004 से दी जाती है।)

हवलदार खोत केशव तुकाराम (सं. 2778786एच अब जेसी-459386डब्ल्यू), 25 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2004 से दी जाती है।)

हवलदार निकम अरुण विष्णु (सं. 2778135एम अब जेसी-459387वाई), 25 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार चव्हाण श्रीकांत रघुनाथ (सं. 2782543पी अब जेसी-459388एफ), 15 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार मल्हारी पावशे (सं. 2772231एल अब जेसी-459389के), 5 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार रुमनवार बापू बलभीम (सं. 2777146एम अब जेसी-459390वाई), 15 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार बाऊस्कर बलवंत गुंडु (सं. 2781372एफ अब जेसी-459391एफ), 15 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार भैंप शंकर बाबु (सं. 2779317एम अब जेसी-459392के), 15 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2004 से दी जाती है।)

हवलदार बलीराम नामदेव माने (सं. 2775570डब्ल्यू अब जेसी-459393एम), 21 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक लीलाधर नाथ (सं. 2781137एच अब जेसी-459394पी), 02 अगस्त 2004+

+(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चिदम्बरा ई एस (जेसी-204033एम), 01 अगस्त 2004

सूबेदार कुराले सुभाना आप्पा (जेसी-204010पी), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पवार वसंत किशन (जेसी-458908पी), 19 मई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सुरेश राय जाधव (जेसी-458974एक्स), 06 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार शामराव तुकाराम पाटील (जेसी-458934डब्ल्यू), 12 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार जित पाल सिंह (जेसी-458943एक्स), 21 जून 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बालु गंगाधर माटे (जेसी-458997वाई), 14 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार देसाई शिवाजी शंकर (जेसी-458825के), 14 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बालु सीताराम घोलप (जेसी-458886एफ), 20 जून 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पाटील मुरलीधर देवप्पा (जेसी-458902एन), 27 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार लातुरकर चंद्रकांत परशुराम (जेसी-458918वाई), 14 जून 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पाटील कृष्णा रामचंद्र (जेसी-458952वाई), 04 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार आंब्रे युवराज तानाजी (जेसी-458958ए), 15 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बाबु कुरंगी (जेसी-459065आई), 30 जून 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बबन राजाराम जाधव (जेसी-458990पी), 11 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सुर्वे मारुती सखाराम (जेसी-458940के), 23 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार कृष्णा ज्योतीबा बालेकुंदी (जेसी-458585एक्स), 26 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार वालमीक कचरुजी शहरवाले (जेसी-458778एक्स), 04 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार राजेंद्र रामचंद्र महाखीक (जेसी-458813पी), 05 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार भालेराव संकर पुंडलीकराव (जेसी-458814एक्स), 19 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार उतेकर सुर्यकांत दादा (जेसी-458887के), 05 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बेलगांवकर अशोक सीधराय (जेसी-458925पी), 05 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बरडे भास्कर बाबुराव (जेसी-459054एम), 12 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पाटील भगवान गणपती (जेसी-459057ए), 23 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार गायकवाड विजय महादेव (जेसी-458744के), 27 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सुरेश महादेव जावकर (जेसी-458928एच), 14 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार श्रीनिवासप्पा के (जेसी-459107ए), 26 जुलाई 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पवार शामराव सदाशिव (जेसी-458839के), 15 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार मोटरी संभाजी (जेसी-458926एक्स), 04 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार जे कासीम (जेसी-458951डब्ल्यू), 13 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पाडले राजु ज्ञानु (जेसी-458880ए), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अशोक कुमार सिंह (जेसी-458717ए), 30 अगस्त 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2004 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार लिपिक कुलामणी बिसवाल (जेसी-458728एम), 06 सितम्बर 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)

डोगरा रेजिमेन्ट  
सूबेदार के रैंक में

सूबेदार बच्चन लाल (जेसी-519121वाई), 03 मई 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2003 से।)

नायब सूबेदार सूरज प्रकाश (जेसी-519290ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द राणा (जेसी-519322एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार हेम सिंह (जेसी-519346एफ), 19 जून 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से।)

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-519090के), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह गौतम (जेसी-519167एफ), 01 अप्रैल 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से।)

नायब सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-519567एन), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-519402पी), 19 मार्च 2004

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-519518के), 06 अगस्त 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2004 से।)

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-519553एन), 21 जुलाई 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2004 से।)

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-519481पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार दिले राम (जेसी-519407एन), 09 जुलाई 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से।)

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-519408डब्ल्यू), 26 जुलाई 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से।)

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-519473डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार भानू दत्त (जेसी-519507वाई), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-519520एच), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार किकर सिंह (जेसी-519528पी), 16 सितम्बर 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से।)

नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-519588के), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार नेहरू लाल (जेसी-519554डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से।)

नायब सूबेदार सोम प्रकाश (जेसी-519604डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार श्रवण सिंह (सं. 3981726वाई अब जेसी-519920पी), 26 जून 2004

हवलदार प्रेम नाथ (सं. 3981443एक्स अब जेसी-519921एक्स), 09 जुलाई 2004

हवलदार बलबीर सिंह काजत (सं. 3981602के अब जेसी-519922ए), 01 अगस्त 2004

हवलदार जय चन्द राणा (सं. 3981876पी अब जेसी-519923एच), 01 अगस्त 2004

हवलदार भगवान सिंह (सं. 3983726वाई अब जेसी-519924एल), 01 अगस्त 2004

हवलदार विजय कुमार (सं. 3984706डब्ल्यू अब जेसी-519925एन), 01 अगस्त 2004

हवलदार तारा चन्द (सं. 3982300के अब जेसी-519926डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार शातर सिंह (सं. 3981502वाई अब जेसी-519927वाई), 17 अगस्त 2004



हवलदार रमा कांत (सं. 3984128एम अब जेसी-519907एल),  
17 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से।)

हवलदार प्रेम सागर (सं. 3981592एल अब जेसी-519908एन),  
01 अगस्त 2004

हवलदार वमेल सिंह (सं. 3981746एम अब जेसी-519909डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2004

हवलदार बलविन्द्र सिंह (सं. 3981831पी अब जेसी-519910एल),  
01 अगस्त 2004

हवलदार गणेश राज (सं. 3982020डब्ल्यू अब जेसी-519911एन),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रणबीर सिंह (सं. 3982040के अब जेसी-519912डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2004

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 3982432एक्स अब जेसी-519913वाई),  
01 अगस्त 2004

हवलदार टेक चन्द (सं. 3982441वाई अब जेसी-519914एफ),  
01 अगस्त 2004

हवलदार होशियार सिंह (सं. 3983169के अब जेसी-519915के),  
01 अगस्त 2004

हवलदार राज कुमार (सं. 3983096एच अब जेसी-519916एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार कमल सिंह (सं. 3983062पी अब जेसी-519917पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रत्न सिंह (सं. 3983131ए अब जेसी-519918एक्स),  
01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक गोपाल सिंह ठाकुर (सं. 3983740के अब  
जेसी-519919ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 3983614एक्स अब जेसी-519882के),  
12 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से।)

हवलदार मदन लाल सपोलिया (सं. 3981504के अब जेसी-  
519883एम), 12 अप्रैल 2004

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 3983107के अब जेसी-519884पी),  
04 मई 2004

हवलदार प्रकाश चन्द गुलेरिया (सं. 3982288एन अब जेसी-  
519885एक्स), 09 मई 2004

हवलदार प्यार चन्द (सं. 3980460एल अब जेसी-519886ए),  
01 जून 2004

हवलदार ठरंतर सिंह जमवाल (सं. 3980951एफ अब  
जेसी-519887एच), 23 जून 2004

हवलदार प्रमोद कुमार चौहान (सं. 3988974एक्स अब  
जेसी-519888एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार सुखदेव कुमार (सं. 3988528डब्ल्यू अब जेसी-519889एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार तिलक राज (सं. 3981201पी अब जेसी-519890एच),  
25 अप्रैल 2004

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 3981364एच अब जेसी-519891एल),  
01 जून 2004

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 3981577डब्ल्यू अब जेसी-519892एन),  
01 जून 2004

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 3988413एच अब जेसी-519893डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2004

हवलदार नारायण सिंह खेमटा (सं. 3988986एम अब  
जेसी-519894वाई), 01 जुलाई 2004

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 3988468एम अब जेसी-519895एफ),  
01 जुलाई 2004

हवलदार विजय कुमार (सं. 3981821एल अब जेसी-519896के),  
17 जुलाई 2004

हवलदार तिलक राज (सं. 3980330एच अब जेसी-519897एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 3983727ए अब जेसी-519898पी),  
03 अगस्त 2004-

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से।)

हवलदार कृष्ण चन्द (सं. 3983800एन अब जेसी-519899एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार अभिनाश सिंह (सं. 3981817एच अब जेसी-519900एफ),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3982156ए अब जेसी-519901के),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 3981372एफ अब जेसी-519902एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3988896एल अब जेसी-519903पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार चिन्त राम (सं. 3987261ए अब जेसी-519904एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार रोशन लाल (सं. 3981389पी अब जेसी-519905ए),  
01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक स्वर्ण लाल (सं. 3983531एन अब जेसी-519906एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार लिपिक की पदोन्नति के लिए

हवलदार लिपिक देवेन्द्र पातरा (सं. 9088168ए अब जेसी-593219एफ), 07 जून 2004

(नायब सूबेदार लिपिक रैंक में 01 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लिपिक माहतो (सं. 9088193वाई अब जेसी-593248डब्ल्यू),  
17 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार लिपिक रैंक में 01 जुलाई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लिपिक जसविन्द्र सिंह (सं. 9088342एफ अब जेसी-593247एल), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार धनी राम (सं. 9086140एफ अब जेसी-593234डब्ल्यू),  
09 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दलार सिंह (सं. 9086466एक्स अब जेसी-593235वाई),  
21 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 04 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 9085699एम अब जेसी-593236एफ),  
09 जून 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 05 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जोगिन्द्र पाल (सं. 9086557एफ अब जेसी-593237के),  
21 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 19 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैंट्री  
नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार चूनी लाल (सं. 9084722एच अब जेसी-593238एम),  
31 मई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद शफी (सं. 9086046एक्स अब जेसी-593239पी),  
31 मई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रहमत उल्लाह खान (सं. 9085289एम अब जेसी-592240के), 15 जून 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चमबेल सिंह (सं. 9084721ए अब जेसी-593241एम),  
29 जून 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 07 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 9087643एक्स अब जेसी-593242पी),  
29 जून 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 23 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पुर्ण सिंह (सं. 9086114ए अब जेसी-593243एक्स),  
15 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 06 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दीन मौहम्मद (सं. 9086898एम अब जेसी-593244ए),  
15 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 06 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रोमेश चन्द्र (सं. 9086852के अब जेसी-593245एच),  
15 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 06 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल धनी वद् (सं. 9087271वाई अब जेसी-593246एल),  
31 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मुही गोगोई (सं. 4353372के अब जेसी-548951एक्स),  
08 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार एस आर लालबियाकलियाना (सं. 4354439के अब जेसी-548991वाई), 31 मार्च 2004

हवलदार सुबल सिन्हा (सं. 4354042एक्स अब जेसी-548992एफ),  
31 मार्च 2004

हवलदार हरका बहादुर थापा (सं. 4356284वाई अब जेसी-548985एल), 25 मई 2004/01 सितम्बर 2003 \*

हवलदार नन्देश्वर शाईकिया (सं. 4354357एफ अब जेसी-548995पी), 31 मार्च 2004

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 4356283डब्ल्यू अब जेसी-548997ए), 19 जून 2004/01 मार्च 2004 \*

हवलदार रणजीत सिन्हा (सं. 4351598डब्ल्यू अब जेसी-548998एच), 02 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार अनिल चन्दा दास (सं. 4352990एच अब जेसी-548999एल), 07 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार भद्रा कान्ता शाईकिया (सं. 4353109वाई अब जेसी-549000एम), 02 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार दूर्लव नाथ (सं. 4354121एक्स अब जेसी-549002एस),  
11 जून 2004/06 अप्रैल 2004 \*

हवलदार मनिन्द्रा चन्द्रा राय (सं. 4354152डब्ल्यू अब जेसी-549003ए), 02 जून 2004/01 मई 2004 \*

हवलदार अतुल चन्द कोच (सं. 4354114डब्ल्यू अब जेसी-549001पी), 17 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार ईन्द्रामनी सिंघा (सं. 4354643एच अब जेसी-549004एच), 01 जुलाई 2004/28 मई 2004 \*

हवलदार बिपुल राजबोन्शी (सं. 4354066एफ अब जेसी-549005एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार रिकशन नरजारी (सं. 4354129वाई अब जेसी-549006एन), 15 जून 2004/01 अक्टूबर 2003 \*

हवलदार सीनाराम आमसी (सं. 4354522एफ अब जेसी-549007एन), 02 जून 2004/16 नवम्बर 2003 \*

हवलदार बम बहादुर खड्का (सं. 4354863एम अब जेसी-549008वाई), 08 जून 2004/01 जनवरी 2004 \*

हवलदार बाबुल चन्द भराली (सं. 4353194एम अब जेसी-549009एफ), 12 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार रक्षा कान्ता सिंघा (सं. 4353216ए अब जेसी-549010डब्ल्यू), 12 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार फते बहादुर छेत्री (सं. 4354050डब्ल्यू अब जेसी-549011वाई), 12 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार उत्तम चन्द दास (सं. 4354175एच अब जेसी-549012एफ), 12 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार रौतिनमाण मार (सं. 4354351ए अब जेसी-549013के), 12 जून 2004/01 अप्रैल 2004 \*

हवलदार ईमती आओ (सं. 4354292वाई अब जेसी-549014एम), 19 जून 2004/15 मार्च 2004 \*

हवलदार एम जांगपाओ (सं. 4354823एल अब जेसी-549015पी), 19 जून 2004/15 मार्च 2004 \*

हवलदार सुशेम सिन्हा (सं. 4354041पी अब जेसी-549019एल), 15 जून 2004/01 मई 2004 \*

हवलदार आर टी बेचुग अनाल (सं. 4355878एफ अब जेसी-549022एल), 10 जुलाई 2004/25 मई 2004 \*

हवलदार प्रदिप चन्द बैरया (सं. 4353031एक्स अब जेसी-549023एन), 06 जून 2004

हवलदार प्रिया राम दत्ता (सं. 4353256एफ अब जेसी-549024डब्ल्यू), 06 जून 2004

हवलदार बुधवार डेका (सं. 4353707डब्ल्यू अब जेसी-549025वाई), 06 जून 2004

हवलदार पानकुमा (सं. 4354451के अब जेसी-549026एफ), 06 जून 2004

हवलदार दिपक बोराह (सं. 4357750ए अब जेसी-549028एम), 06 जून 2004

\*वरिष्ठता दी जाती है.

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पुष्कर सिंह भण्डारी (जेसी-528146एम), 01 मई 2004

सूबेदार सिव सिंह रावत (जेसी-528194एम), 01 मई 2004

सूबेदार रवी दत्त शर्मा (जेसी-528196एक्स), 01 जून 2004

सूबेदार शिव प्रकाश (जेसी-528197ए), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) जीवा नन्द डोभाल (जेसी-221022डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार (लिपिक) विरेन्द्र सिंह दहिया (जेसी-528129एम), 01 मई 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-529263के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार कन्वन सिंह (जेसी-528994एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार दलजीत सिंह रावत (जेसी-528995एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन शर्मा (जेसी-529024पी), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार लीला बहादुर (जेसी-529025एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अम्बा दत्त (जेसी-529070के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार दिगपाल मनी (जेसी-529109एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार आशा राम (जेसी-529119पी), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-529121एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार गिरिश चन्द नैथानी (जेसी-529316एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-529184पी), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार जैपाल सिंह (जेसी-529185एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-529249एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-529317ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मंगलू लाल (जेसी-529309एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार गजेंद्र सिंह (जेसी-529319एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529341डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार चरत सिंह (जेसी-529354एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529355डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-529356वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-529217पी), 25 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मातवर सिंह (जेसी-528936एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार भगवत सिंह (जेसी-529233एम), 01 मई 2004

नायब सूबेदार गणेश प्रसाद (जेसी-529247एम), 01 मई 2004

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-529057ए), 05 मई 2004

नायब सूबेदार द्वारिका प्रसाद (जेसी-528976एच), 06 मई 2004

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-529026ए), 21 मई 2004

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-529196के), 26 मई 2004

नायब सूबेदार गंगा दत्त (जेसी-528659वाई), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शीतल सिंह (जेसी-529122पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शीशुपाल सिंह (जेसी-529150एफ), 01 जून 2004

नायब सूबेदार गंगा सिंह (जेसी-529117के), 01 जून 2004

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद कन्डवाल (जेसी-529170पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार धनबीर सिंह (जेसी-529224एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-529225एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-529268एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार कुँवर सिंह (जेसी-529290एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-529323एन), 01 जून 2004

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) झाबर सिंह (जेसी-528670ए), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) रविन्द्र मोहन सिंह (जेसी-528706एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) त्रिलोक सिंह राणा (जेसी-528774एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) हर्ष सिंह नेगी (जेसी-528790वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रतुमन सिंह (जेसी-528791एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) रमेश रावत (जेसी-528778एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) विरेन्द्र सिंह (जेसी-528795एक्स), 01 मई 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) रामेन्द्र सिंह (जेसी-528839के), 01 जून 2004

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हरिहर प्रसाद पाण्डेय (जेसी-528145के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) पारेश्वर प्रसाद (जेसी-528144एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार साबर सिंह (सं. 4064960वाई अब जेसी-529628एन), 25 मार्च 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4063270एच अब जेसी-529629डब्ल्यू), 04 मार्च 2004

हवलदार शिव सिंह (सं. 4062495वाई अब जेसी-529630एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4061992डब्ल्यू अब जेसी-529631एन), 03 अप्रैल 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रवेन्द्र सिंह (सं. 4064328एफ अब जेसी-529632डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार सुरबीर सिंह (सं. 4065022एल अब जेसी-529633वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4062822वाई अब जेसी-529634एफ), 25 अप्रैल 2004

हवलदार बीर सिंह (सं. 4064214डब्ल्यू अब जेसी-529635के), 05 मई 2004

हवलदार सरबेश्वर प्रसाद (सं. 4062190वाई अब जेसी-529637पी), 01 जून 2004

हवलदार बीर सिंह (सं. 4062365डब्ल्यू अब जेसी-529638एक्स), 01 जून 2004

हवलदार मनबर सिंह (सं. 4062453एम अब जेसी-529639ए), 01 जून 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4062617एक्स अब जेसी-529640पी), 01 जून 2004

हवलदार मनबर सिंह (सं. 4065174एम अब जेसी-529641एक्स), 01 जून 2004

हवलदार धीरज सिंह (सं. 4064471एन अब जेसी-529642ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) भरत सिंह (सं. 4061240एम अब जेसी-529636एम), 01 जून 2004

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 4062951वाई अब जेसी-529643एच),  
07 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4062875एक्स अब जेसी-529644एल),  
01 फरवरी 2004

हवलदार नन्द सिंह (सं. 4065198डब्ल्यू अब जेसी-529645एन),  
26 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4065991एल अब जेसी-529647वाई),  
10 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 4064455डब्ल्यू अब जेसी-529648एफ),  
12 मई 2004

हवलदार लखपत सिंह (सं. 4062971एम अब जेसी-529649के),  
13 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4065115ए अब जेसी-529650वाई),  
21 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार हर्ष मणी (सं. 4065064एक्स अब जेसी-529651एफ),  
12 जून 2004

हवलदार तेजपाल सिंह भण्डारी (सं. 4067462एक्स अब जेसी-529652के), 29 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 4062778ए अब जेसी-529653एम),  
21 जून 2004

हवलदार अनिल कुमार (सं. 4066437एम अब जेसी-529654पी),  
01 जुलाई 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4064089एक्स अब जेसी-529655एक्स),  
01 जुलाई 2004

हवलदार गिरीश चन्द (सं. 4062554ए अब जेसी-529656ए),  
01 जुलाई 2004

हवलदार कैलाश चन्द कोटनाला (सं. 3391151एल अब जेसी-529657एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार बुधर सिंह (सं. 4062631के अब जेसी-529658एल),  
01 जुलाई 2004

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4063183पी अब जेसी-529659एन),  
01 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार (म्युजिशियन) के रैंक में

हवलदार (म्युजिशियन) श्यामा दत्त (सं. 4064167के अब जेसी-529646के), 04 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2004 से दी जाती है)

## विशेष सूची

## पंजाब रेजिमेंट

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क मदन लाल शर्मा (सं. 2473935एच अब जेसी-429547वाई), 20 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क सतपाल दहिया (सं. 2475862ए अब जेसी-429575एल), 01 जून 2004

हवलदार क्लर्क बान्कि लाल शर्मा (सं. 2475870वाई अब जेसी-429576एन), 01 जून 2004

हवलदार क्लर्क राम चन्द्र (सं. 2475877एच अब जेसी-429548एफ),  
01 जून 2004

हवलदार क्लर्क अगित वी (सं. 2475878एल अब जेसी-429549के),  
01 जून 2004

हवलदार क्लर्क प्रदीप कुमार ठाकुर (सं. 2476500एल अब जेसी-429577डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 2475945एल अब जेसी-429550वाई),  
08 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कैवलजीत सिंह (सं. 2476854एन अब जेसी-429551एफ),  
29 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2473106पी अब जेसी-429540पी), 26 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बिशन दास (सं. 2473417एच अब जेसी-429541एक्स),  
14 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
04 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 2481363एफ अब जेसी-429552के),  
23 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह ठाकुर (सं. 2479877एन अब जेसी-  
429553एम), 04 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
16 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बलविन्द्र सिंह (सं. 2476401एच अब जेसी-429562एन),  
14 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार लोकेन्द्र सिंह (सं. 2478863एन अब जेसी-429542ए),  
17 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
02 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार हरभजन सिंह सेना मेडल (सं. 2474578एक्स अब  
जेसी-429543एच), 15 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार जागीर सिंह (सं. 2474768के अब जेसी-429554पी),  
16 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
18 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार हरवंश गिर (सं. 8032069पी अब जेसी-429544एल),  
26 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
23 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह (सं. 2471703एल अब जेसी-429545एन),  
19 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार स्थिन्दर सिंह (सं. 2476306डब्ल्यू अब जेसी-429563डब्ल्यू),  
19 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार दिलबाघ सिंह (सं. 2474315वाई अब जेसी-429555एक्स),  
28 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2477194एन अब जेसी-429564वाई),  
10 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 2474400एन अब जेसी-429556ए),  
06 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुरबचन सिंह (सं. 2474031पी अब जेसी-429557एच),  
20 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुलजार सिंह (सं. 2474243ए अब जेसी-429578वाई),  
18 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 2475433वाई अब जेसी-429558एल),  
28 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 2478113पी अब जेसी-429559एन),  
04 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार रतन सिंह (सं. 2479029वाई अब जेसी-429546डब्ल्यू),  
08 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार जयराम (सं. 2473861वाई अब जेसी-429560एच),  
29 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार देव राज (सं. 2474414एफ अब जेसी-429565एफ),  
04 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुदेश कुमार (सं. 2474842ए अब जेसी-429566के),  
10 अप्रैल 2004

हवलदार अवतार सिंह, सेना मेडल (सं. 2477591एम अब जेसी-429567एम), 20 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार बीर सिंह (सं. 2478367एम अब जेसी-429568पी),  
10 अप्रैल 2004

हवलदार नरेन्द्र सिंह ठाकुर (सं. 2472316एच अब जेसी-429561एल),  
26 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार नाराज सिंह (सं. 2476242डब्ल्यू अब जेसी-429579एफ),  
28 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 2476310वाई अब जेसी-429580डब्ल्यू),  
01 जून 2004

हवलदार नानक सिंह (सं. 2477057पी अब जेसी-429569एक्स),  
01 जून 2004

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 2478303एफ अब जेसी-429570एम),  
01 जून 2004

हवलदार दौलत सिंह (सं. 2478379एफ अब जेसी-429571पी),  
01 जून 2004

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 2484362के अब जेसी-429581वाई),  
22 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 2475101पी अब जेसी-429582एफ),  
29 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार दलीप सिंह (सं. 2474268एम अब जेसी-429583के),  
18 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 2476019एम अब जेसी-429584एम),  
22 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार धारा सिंह (सं. 2472772एन अब जेसी-429585पी),  
22 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 2475090एन अब जेसी-429572एक्स),  
14 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार विश्वनाथ शर्मा (सं. 2475605एच अब जेसी-429573ए),  
01 जून 2004

हवलदार ओम प्रकाश वर्मा (सं. 2471670एल अब जेसी-429574एच),  
12 जून 2004

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम चन्द्र (सं. 3179414एच अब जेसी-489534एल),  
01 जून 2004

हवलदार कृष्ण चन्द्र शर्मा (सं. 3174963वाई अब जेसी-489535एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3178703एल अब जेसी-489536डब्ल्यू),  
02 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 3180660ए अब जेसी-489537वाई),  
01 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 3175174वाई अब जेसी-489538एफ),  
24 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार दलवीर सिंह (सं. 3176017वाई अब जेसी-489539के),  
01 अगस्त 2004

हवलदार खेता राम भाकर (सं. 3180875वाई अब जेसी-489540वाई),  
01 अगस्त 2004

दिवाकर

अवर सचिव

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी.डी.) लिपिक के रैंक में

हवलदार संतोष कुमार आल्डा (सं. 4262078डब्ल्यू अब जेसी-  
559294वाई), 20 मार्च 2004/15 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 15 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार ब्लास्यूस माझी (सं. 4261782ए अब जेसी-559295एफ),  
14 जून 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 4260608एफ अब जेसी-559296के),  
20 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार लकरा (सं. 4261061डब्ल्यू अब जेसी-  
559297एम), 25 मई 2004/01 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार तरुण कुमार साहू (सं. 4260839एक्स अब जेसी-  
559298पी), 31 मई 2004/01 मार्च 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार जॉन लकरा (सं. 4261203एच अब जेसी-  
559299एक्स), 17 मार्च 2004/01 मार्च 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार कुशेश्वर सिंह (सं. 4259248के अब जेसी-559300एफ),  
07 जून 2004/01 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगत नारायण प्रसाद (सं. 4259905एच अब जेसी-  
559301के), 07 जून 2004/01 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार कैलाश चन्द्र लेंका (सं. 4261496वाई अब जेसी-  
559302एम), 12 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रफुल्ल कुमार नन्दा (सं. 4265800पी अब जेसी-  
559303पी), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद प्रसाद झा (सं. 4262652के अब जेसी-  
559304एक्स), 18 मई 2004/18 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 18 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार क्रिश्चोफर हेमरम (सं. 4262055पी अब जेसी-  
559305ए), 07 जून 2004/21 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 21 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार भरत लाल काछी (सं. 4262167पी अब जेसी-  
559306एच), 29 मई 2004/01 मई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार राम अवध सिंह (सं. 4260610वाई अब जेसी-  
559307एल), 17 जून 2004/02 मई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 02 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (सं. 4261469पी अब जेसी-559308एन),  
14 जून 2004/04 मई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 04 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार लल्लू साह (सं. 13614844वाई अब जेसी-559309डब्ल्यू),  
03 जुलाई 2004/04 मई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 04 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार कन्हैया लाल प्रसाद (सं. 4263760ए अब जेसी-  
559310एल), 07 जून 2004/07 मई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 07 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार ललन सिंह (सं. 4260993डब्ल्यू अब जेसी-  
559311एन), 15 जून 2004/01 जून 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक गुण निधि बारिक (सं. 4264160के अब जेसी-  
559312डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

हवलदार/लिपिक अंजुन कुमार सामल (सं. 4264165एच अब जेसी-  
559313वाई), 01 जुलाई 2004

हवलदार/लिपिक राम भान (सं. 4264203एन अब जेसी-  
559314एफ), 14 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक राजवीर सिंह (सं. 4264204डब्ल्यू अब जेसी-  
559315के), 09 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)



हवलदार/लिपिक कृष्ण चन्द्र नायक (सं. 4264163एक्स अब जेसी-559316एम), 01 जुलाई 2004

4 जी आर  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गंगा बहादुर थापा (सं. 5345013एक्स अब जेसी-612559एफ), 10 मई 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2004)

हवलदार रेशम बहादुर थापा (सं. 5345533एच अब जेसी-612560डब्ल्यू), 01 मई 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 18 अप्रैल 2004)

हवलदार दुर्गा बहादुर थापा (सं. 5345250एफ अब जेसी-612561वाई), 01 मई 2004

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5345408वाई अब जेसी-612562एफ), 01 मई 2004

हवलदार हुम बहादुर गुरुंग (सं. 5345546ए अब जेसी-612563क), 01 जुलाई 2004

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5345066डब्ल्यू अब जेसी-612564एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार लोक बहादुर थापा (सं. 5344764एम अब जेसी-612565पी), 01 जुलाई 2004

हवलदार (लिपिक) कृष्ण बहादुर थापा छेत्री (सं. 5345258एन अब जेसी-612566एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार भीम बहादुर गुरुंग (सं. 5345574एम अब जेसी-612567ए), 01 अगस्त 2004

11 जी आर  
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धन बहादुर भुजेल (जेसी-634359एल), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार गणेश प्रसाद लिम्बु (जेसी-634365वाई), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार नर प्रसाद लिम्बु (जेसी-634392एच), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम कुमार राई (सं. 9417374एन अब जेसी-634569एल), 01 सितम्बर 2004

हवलदार मन बहादुर खड्का (सं. 9418138वाई अब जेसी-634571एच), 10 सितम्बर 2004#

#(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004)

हवलदार बीर मान तामंग (सं. 9417690एम अब जेसी-634553ए), 10 अप्रैल 2004@

@(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार डिग बहादुर राई (सं. 9415898डब्ल्यू अब जेसी-634554एच), 28 जून 2004#

#(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2004)

हवलदार बुदि राज राई (सं. 9415884डब्ल्यू अब जेसी-634555एल), 09 जुलाई 2004\$

\$(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004)

हवलदार सांग शेरिंग लेप्चा (सं. 9416973एफ अब जेसी-634556एन), 19 जुलाई 2004%.

%(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004)

हवलदार/लिपिक तपन कुमार दाश (सं. 9417467एच अब जेसी-634557डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार अर्जुन तामंग (सं. 9415934डब्ल्यू अब जेसी-634558वाई), 02 अगस्त 2004&

&(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)

हवलदार इंद्रा प्रकाश तामंग (सं. 9416136पी अब जेसी-634559एफ), 02 अगस्त 2004\*

\*(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)

हवलदार प्रकाश चंद्र तामंग (सं. 9416243एच अब जेसी-634560डब्ल्यू), 26 अगस्त 2004+

+(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004)

हवलदार लिला बहादुर राई (सं. 9416903एच अब जेसी-634561वाई), 23 अगस्त 2004\*\*

\*\* (वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004)

हवलदार संता बहादुर राई (सं. 9417903पी अब जेसी-634562एफ), 12 अगस्त 2004++

++ (वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)

हवलदार शिव प्रसाद सुब्बा (सं. 9418582पी अब जेसी-634563के), 23 अगस्त 2004@

@(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)

हवलदार नर बहादुर तामंग (सं. 9417567एन अब जेसी-634564एम), 23 अगस्त 2004#

#(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)

हवलदार शिव राज प्रधान (सं. 9418087डब्ल्यू अब जेसी-634565पी), 01 सितम्बर 2004

हवलदार दावा सिंग तामंग (सं. 9416047डब्ल्यू अब जेसी-634566एक्स), 01 सितम्बर 2004

हवलदार आइता बहादुर लिम्बु (सं. 9416507एम अब जेसी-634567ए), 01 सितम्बर 2004

हवलदार नर बहादुर राई (सं. 9416147एफ अब जेसी-634568एच), 01 सितम्बर 2004

जाट रेजिमेन्ट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3175376ए अब जेसी-489549एन),  
07 जुलाई 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3176794एफ अब जेसी-489550एच),  
07 जुलाई 2004

हवलदार हुकमा राम (सं. 3177089पी अब जेसी-489551एल),  
07 जुलाई 2004

हवलदार उद्वार सिंह (सं. 3177333एन अब जेसी-489552एन), 29  
जुलाई 2004

हवलदार राधेश सिंह, शौर्य चक्र (सं. 3179446एल अब  
जेसी-489542के), 27 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार दलबीर सिंह परिहार (सं. 3176751एम अब जेसी-  
489543एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार बलशेर (सं. 3177688पी अब जेसी-489544पी), 01 जुलाई  
2004

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 3177768एफ अब जेसी-489545एक्स),  
01 जुलाई 2004

हवलदार सुब राम (सं. 3180353एच अब जेसी-489546ए),  
01 अगस्त 2004

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3175683एक्स अब जेसी-489547एच),  
08 अगस्त 2004

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3177145एच अब जेसी-489548एल),  
05 अगस्त 2004

हवलदार विजय सिंह जाट (सं. 3174403एम अब जेसी-489511के),  
02 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रामेश्वर सिंह (सं. 3176074ए अब जेसी-489512एम),  
फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार लाल चन्द (सं. 3177380एफ अब जेसी-  
489513पी), 01 फरवरी 2004

हवलदार हरी राम जाट (सं. 3179156वाई अब जेसी-  
489514एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद कुन्डु (सं. 3179346एल अब जेसी-  
489515ए), 05 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3180609ए अब जेसी-489516एच),  
01 जून 2004

हवलदार धर्म सिंह (सं. 3180649एफ अब जेसी-489517एल),  
24 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार साम्बल सिंह (सं. 3176599के अब जेसी-  
489518एन), 25 जून 2004

हवलदार नन्द कवर (सं. 3175512एल अब जेसी-489519डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2004

हवलदार रतन सिंह सेना मेडल (सं. 3175998एफ अब जेसी-  
489520एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 3177164एन अब जेसी-489521एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार बच्चु सिंह (सं. 3176945पी अब जेसी-  
489522डब्ल्यू), 16 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरी राम रेपस्वाल (सं. 3177108पी अब जेसी-489523वाई),  
01 जुलाई 2004

हवलदार हवा सिंह (सं. 3177130ए अब जेसी-489524एफ),  
01 जुलाई 2004

हवलदार शिव राम सिंह (सं. 3175067एक्स अब जेसी-489525के),  
31 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3175431एल अब जेसी-  
489526एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार रोहताश (सं. 3177623एफ अब जेसी-489527पी),  
01 जुलाई 2004

हवलदार दरयाव सिंह (सं. 3177920पी अब जेसी-  
489528एक्स), 22 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 3177923एच अब जेसी-489529ए),  
01 जुलाई 2004

हवलदार वजीर सिंह (सं. 3175641एल अब जेसी-489530पी),  
01 जुलाई 2004

हवलदार गोपाल राम चौधरी (सं. 3174734एन अब जेसी-  
489531एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3178166एल अब जेसी-489532ए),  
01 अगस्त 2004

सिख रेजिमेन्ट  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-498007एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह (जेसी-499092एल), 05 अक्टूबर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2004)

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-498856एम), 13 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
27 जुलाई 2004)

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-498999एम), 21 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004)

नायब सूबेदार चनन सिंह (जेसी-499096एफ), 25 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह, एस सी (जेसी-499042ए), 01 अक्टूबर  
2004

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क चंचल सिंह (जेसी-498776पी), 25 सितम्बर  
2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004)

नायब सूबेदार क्लर्क बलदेव सिंह, (जेसी-498778ए), 07 अक्टूबर  
2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2004)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-196860एक्स), 01 जून 2004

सूबेदार सूरत सिंह (जेसी-208105एन), 01 सितम्बर 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
03 अगस्त 2004)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मघर सिंह (जेसी-499150के), 19 सितम्बर 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004)

नायब सूबेदार सन्तोख सिंह (जेसी-498946एन), 01 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 मई 2004)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499105एक्स), 14 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
18 जून 2004)

नायब सूबेदार सुखमिन्दर सिंह (जेसी-499103एम), 14 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004)

नायब सूबेदार स्वरूप सिंह (जेसी-499047वाई), 22 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2004)

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-499068पी), 26 सितम्बर 2004  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
03 सितम्बर 2004)

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-498931एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रघुपाल सिंह (जेसी-498953के), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मेजर सिंह (सं. 3382210एल अब जेसी-499457पी),  
13 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
14 जनवरी 2004)

हवलदार देविन्दरजीत सिंह (सं. 3389364ए अब जेसी-499458एक्स),  
26 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2004)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 3382439के अब जेसी-499459ए),  
17 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3384592वाई अब जेसी-499460पी),  
18 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2004)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3381830पी अब जेसी-499461एक्स),  
11 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
29 जून 2004)

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 3386731डब्ल्यू अब जेसी-499462ए),  
24 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
31 जुलाई 2004)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3386050एन अब जेसी-499463एच),  
15 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
03 अगस्त 2004)

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क सुभाष चंद (सं. 3380705वाई अब जेसी-499464एल),  
03 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 3385992एक्स अब जेसी-499444एक्स),  
04 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 अप्रैल 2004)

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं. 3386036एफ अब जेसी-499445ए),  
04 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 अप्रैल 2004)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3387350एफ अब जेसी-499446एच),  
27 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

हवलदार हरबंस सिंह (सं. 3386529एच अब जेसी-499447एल),  
18 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
04 जून 2004)

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 3388573एल अब जेसी-499448एन),  
04 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 जून 2004)

हवलदार मुख्तार सिंह (सं. 3386386एन अब जेसी-499449डब्ल्यू),  
16 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2004)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3388133एक्स अब जेसी-499450एल),  
13 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2004)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 3384741एफ अब जेसी-499451एन),  
12 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 जुलाई 2004)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3384904के अब जेसी-499452डब्ल्यू),  
12 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
19 जुलाई 2004)

हवलदार गुरतेज सिंह (सं. 3384910एक्स अब जेसी-499453वाई),  
12 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
20 जुलाई 2004)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3385536एम अब जेसी-499454एफ),  
01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क कलमंदर सिंह (सं. 14912234एच अब जेसी-  
499455के), 06 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004)

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जिले सिंह (सं. 13614545ए अब जेसी-412887एल),  
01 जून 2004

हवलदार हरी सिंह (सं. 13614867ए अब जेसी-412888एन),  
01 जून 2004

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13615163एच अब जेसी-412889डब्ल्यू),  
26 जून 2004\*

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार बादाम सिंह (सं. 13615645एक्स अब जेसी-412890एल),  
01 जनवरी 2004

हवलदार ग्याना राम खिलेरी (सं. 13616002एम अब जेसी-  
412891एन), 01 जून 2004

हवलदार सूर्यवंशी कमलाकर विश्वनाथ (सं. 13617091एच अब  
जेसी-412892डब्ल्यू), 01 जून 2004

हवलदार मण्डलिक संजय संभाजी राव (सं. 13617451एन अब  
जेसी-412893वाई), 25 जून 2004\*

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार अल्ताफ हुसैन (सं. 2981889डब्ल्यू अब जेसी-412894वाई),  
01 जून 2004

हवलदार चतर सिंह (सं. 13614291एन अब जेसी-412895के),  
17 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

हवलदार रानी दान सिंह (सं. 13615020एच अब जेसी-412896एम),  
26 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

हवलदार रोहिताशिव (सं. 13615950के अब जेसी-412897पी),  
08 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

हवलदार मदन लाल (सं. 13748487एफ अब जेसी-412898एक्स),  
19 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

हवलदार इन्दर सिंह (सं. 13748941एक्स अब जेसी-412899ए),  
13 जुलाई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004)

लद्दाख स्काउट्स  
नायब सूबेदार (जीडी) के पद पर

हवलदार गुलाम अबास (सं. 9923265ए अब जेसी-588346एम),  
25 मई 2004/01 अप्रैल 2004@

हवलदार स्कर्मा सम्पतन (सं. 9923280पी अब जेसी-588347पी),  
06 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004@

हवलदार छेवांग मुरदु (सं. 9923284एल अब जेसी-588348एक्स),  
02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004@

हवलदार फुंचुक रफस्तन (सं. 9923285एन अब जेसी-588349ए),  
02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004@

हवलदार सोनम दोरजे (सं. 9923288एफ अब जेसी-588350पी),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार ताशी गोबो (सं. 9923292के अब जेसी-588351एक्स),  
17 मई 2004/01 मई 2004@

हवलदार टुंदुप बंग्याल (सं. 9923295एक्स अब जेसी-588352ए),  
08 जून 2004/01 मई 2004@

हवलदार ईशे छेतन (सं. 9923297एच अब जेसी-588353एच),  
20 मई 2004/01 मई 2004@

हवलदार छेतन नमग्याल (सं. 9923300एक्स अब जेसी-588354एल),  
21 जून 2004/01 जून 2004@

हवलदार ताशी अंगदु (सं. 9923140एच अब जेसी-588355एन),  
29 जून 2004/01 जून 2004@

हवलदार पल्दन दावा (सं. 9922770डब्ल्यू अब जेसी-588356डब्ल्यू),  
15 जून 2004/01 जून 2004@

हवलदार छेवांग नुरबु (सं. 9923281एक्स अब जेसी-588357वाई),  
02 अगस्त 2004/01 जून 2004@

नायब सूबेदार लिपिक (जीडी) के पद पर

हवलदार लिपिक मोहम्मद सुलतान वानी (सं. 9923011एच अब  
जेसी-588358एफ), 01 जून 2004

हवलदार लिपिक अशोक कुमार शर्मा (सं. 9923012एल अब  
जेसी-588359के), 03 जून 2004/01 जून 2004@

हवलदार लिपिक कुलदीप सिंह (सं. 9923014डब्ल्यू अब  
जेसी-588360वाई), 01 जुलाई 2004

हवलदार लिपिक राम कुमार (सं. 9923015वाई अब जेसी-588361ए),  
01 जुलाई 2004

@(वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाएगी)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स  
नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 13745967एफ अब जेसी-579696एफ),  
29 दिसम्बर 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सोयूम मूर्ति (सं. 13741648एक्स अब जेसी-579697ए),  
07 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13746155ए अब जेसी-579698एच),  
01 जनवरी 2004

हवलदार प्रीथी चन्द (सं. 13743843एन अब जेसी-579699एल),  
22 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 13743849पी अब जेसी-579700पी),  
01 जनवरी 2004

हवलदार बलदेव दास शर्मा (सं. 13744363डब्ल्यू अब  
जेसी-579701एक्स), 19 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार संसार चन्द (सं. 13744365एफ अब जेसी-579702ए),  
01 जनवरी 2004

हवलदार बासु देब (सं. 13744367एम अब जेसी-579703एच),  
01 जनवरी 2004

हवलदार उधम सिंह (सं. 13745764एक्स अब जेसी-579704एल),  
01 जनवरी 2004

हवलदार नंद लाल ठाकुर (सं. 13745783एच अब जेसी-579705एन),  
01 जनवरी 2004

हवलदार राम लाल (सं. 13745785एच अब जेसी-579706डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2004

हवलदार दिल भाग सिंह (सं. 13745813पी अब जेसी-579707वाई),  
01 जनवरी 2004

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 13745703ए अब जेसी-579708एफ),  
09 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक ज्ञान सिंह पाल (सं. 13749733पी अब  
जेसी-579609के), 04 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक भगवान सिंह चौधरी (सं. 13749737एल अब  
जेसी-579710वाई), 03 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार जीवन लाल (सं. 13742128वाई अब जेसी-579711एफ),  
05 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13742294एम अब जेसी-579712के),  
07 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 13743709एच अब जेसी-579713एम),  
01 फरवरी 2004

हवलदार खेम सिंह (सं. 13747218के अब जेसी-579714पी),  
01 फरवरी 2004

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 13748661के अब जेसी-579715एक्स),  
05 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13743176एल अब जेसी-579716एक्स),  
04 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार दया सागर (सं. 1374481के अब जेसी-579717एच),  
01 फरवरी 2004

हवलदार राम दास (सं. 13744032पी अब जेसी-579718एल),  
04 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 13744331एन अब जेसी-579719एन),  
01 फरवरी 2004

हवलदार जोगीन्द्र सिंह (सं. 13744818एफ अब जेसी-579720एच),  
01 फरवरी 2004+

हवलदार मदन लाल (सं. 13743818पी अब जेसी-579670एच),  
01 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार वीर सिंह थापा (सं. 13745379एन अब जेसी-579671एल),  
24 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार ठाकुर (सं. 13744002एक्स अब जेसी-  
579672एन), 10 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक सिंह (सं. 13743972पी अब जेसी-579673डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार मणी राम (सं. 13743112ए अब जेसी-579674वाई),  
11 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक जगदीश चन्द (सं. 13749045डब्ल्यू अब  
जेसी-579675एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार लिपिक सुरेश कुमार (सं. 13749571पी अब  
जेसी-579676के), 01 जनवरी 2004

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 13749574एच अब जेसी-579677एम),  
10 जनवरी 2004

हवलदार मोहन प्रताप श्रेष्ठ (सं. 13745497एफ अब जेसी-579678पी),  
01 जनवरी 2004

हवलदार नेता राम (सं. 13742873वाई अब जेसी-579679एक्स),  
10 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार राम लाल (सं. 13744397के अब जेसी-579680एम),  
16 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार शिव राम (सं. 13744617एच अब जेसी-579681पी),  
01 जनवरी 2004

हवलदार रमेश चन्द सुरीयाल (सं. 13743660एक्स अब  
जेसी-579682एक्स), 12 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सरजीत सिंह राणा (सं. 13744360एच अब जेसी-579683ए),  
13 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13745697एक्स अब जेसी-579684एच),  
01 जनवरी 2004

हवलदार जोगीन्द्र पाल (सं. 13744497पी अब जेसी-579685एल),  
13 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार धनवीर सिंह राणा (सं. 13744517एक्स अब  
जेसी-579686एन), 19 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार प्रभात सिंह (सं. 13745313एक्स अब जेसी-579687डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2004

हवलदार सुदर्शन सिंह (सं. 13744552ए अब जेसी-579688वाई),  
13 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13744547पी अब जेसी-579689एफ),  
11 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 13744641वाई अब जेसी-579690डब्ल्यू),  
11 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 13744646ए अब जेसी-579691वाई),  
15 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13743344पी अब जेसी-579692एफ),  
16 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार तरसेम दास (सं. 13744784वाई अब जेसी-579693के),  
15 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 13744889एच अब जेसी-579694एम),  
01 जनवरी 2004

हवलदार राज मल्ल (सं. 13745907एम अब जेसी-579695पी),  
08 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बलबीर सिंह (सं. 2879904एम अब जेसी-  
469506एक्स), 01 मई 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरीश चन्द्र (सं. 16011711एच अब जेसी-469507ए),  
21 मार्च 2004/28 सितम्बर 2003 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 2874700डब्ल्यू अब जेसी-469508एच),  
08 मार्च 2004/01 मार्च 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 2883858ए अब जेसी-469509एल),  
22 मार्च 2004

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 2883360ए अब जेसी-469510ए),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार इन्द्रराज सिंह (सं. 2875391एल अब जेसी-469511एच),  
01 मई 2004

हवलदार प्यारे लाल (सं. 2877049के अब जेसी-469512एल),  
01 मई 2004

हवलदार शेर सिंह (सं. 2876433वाई अब जेसी-469513एन),  
01 जून 2004

हवलदार नरेन्द्र कुमार शिवनारायण (सं. 2877501एन अब  
जेसी-469514डब्ल्यू), 01 जून 2004

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 2877528एल अब जेसी-469515वाई),  
01 जून 2004

हवलदार किताब सिंह (सं. 2877217एक्स अब जेसी-469516एफ),  
01 जून 2004

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 2877147के अब जेसी-469517के),  
01 जून 2004

हवलदार राम फूल सिंह (सं. 2878998एच अब जेसी-469518एम),  
01 जून 2004

हवलदार हरि किशन (सं. 2883723वाई अब जेसी-469519पी),  
01 जून 2004

हवलदार नरपत सिंह शेखावत (सं. 2879033एक्स अब जेसी-469520के), 01 जून 2004

हवलदार शिव दान सिंह (सं. 2878738एक्स अब जेसी-469521एम),  
01 जून 2004

हवलदार राम कुमार (सं. 2877091एच अब जेसी-469522पी),  
01 जून 2004

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 2880698ए अब जेसी-469523एक्स),  
01 जून 2004

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 2877640एक्स अब जेसी-469524ए),  
01 जून 2004

हवलदार राज सिंह (सं. 2880409ए अब जेसी-469525एच),  
21 जून 2004/01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ख्याली राम (सं. 2884191डब्ल्यू अब जेसी-469526एल),  
01 जून 2004

हवलदार राज कुमार (सं. 2876671एल अब जेसी-469527एन),  
06 जून 2004

हवलदार हरदेवा राम बजरोलिया (सं. 2876744एम अब जेसी-469528डब्ल्यू), 09 जून 2004

हवलदार नफे सिंह (सं. 2878623के अब जेसी-469529वाई),  
28 जून 2004

हवलदार परमजीत (सं. 2883608वाई अब जेसी-469530एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार दलपत सिंह (सं. 2877555पी अब जेसी-469531डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2004

हवलदार गजराज सिंह (सं. 2876810के अब जेसी-469532वाई),  
01 जुलाई 2004

हवलदार सत्य प्रकाश (सं. 2877891एफ अब जेसी-469533एफ),  
01 जुलाई 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 2879370एम अब जेसी-469534के),  
01 जुलाई 2004

हवलदार लाल बिहारी सिंह (सं. 2880891एम अब जेसी-469535एम),  
01 जुलाई 2004

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 2879587डब्ल्यू अब जेसी-469536पी),  
01 जुलाई 2004

हवलदार राजेन्द्र कुमार सिंह (सं. 2879658एम अब जेसी-469537एक्स), 01 जुलाई 2004

हवलदार प्रह्लाद सिंह राठौड़ (सं. 2884388एम अब जेसी-469538ए),  
01 जुलाई 2004

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 2876753एन अब जेसी-469539एच),  
25 जुलाई 2004

हवलदार रमेश सिंह राघव (सं. 2881179के अब जेसी-469540एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार शम्भु सिंह (सं. 2878193एल अब जेसी-469541ए),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार हुक्म सिंह (सं. 2878079एन अब जेसी-469542एच),  
12 जून 2004/01 अप्रैल 2004

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सतवीर सिंह रावत (सं. 2879776ए अब जेसी-469543एल),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार मोहन सिंह (सं. 2878040एफ अब जेसी-469544एन),  
01 मई 2004

हवलदार विजेन्द्र कुमार (सं. 2888657एल अब जेसी-469545डब्ल्यू),  
20 जून 2004/01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार मुलतान सिंह (सं. 2882129एल अब जेसी-469546वाई),  
01 जून 2004

हवलदार चन्द्र पाल सिंह (सं. 2877505के अब जेसी-469547एफ),  
01 जून 2004

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 2881783पी अब जेसी-469548के),  
01 जून 2004

हवलदार महेश चन्द (सं. 2878772एक्स अब जेसी-469549एम),  
01 जून 2004

हवलदार गोवर्धन सिंह शेखावत (सं. 2881156एच अब जेसी-469550एफ), 01 जून 2004

हवलदार शिवनारायण सिंह तोमर (सं. 2877358एम अब जेसी-469551के), 11 जुलाई 2004/01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)



हवलदार भंवर सिंह (सं. 2877845एम अब जेसी-469552एम),  
27 जून 2004/01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्योष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ज्ञान सिंह मुर्बंस (सं. 2878821पी अब जेसी-469553पी),  
05 जून 2004/01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्योष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार नारायण सिंह (सं. 2878827डब्ल्यू अब जेसी-469554एक्स),  
01 जून 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह शेखावत (सं. 2879771एफ अब जेसी-  
469555ए), 01 जून 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2876697ए अब जेसी-469556एच),  
02 जून 2004

हवलदार झब्बर सिंह (सं. 2881267ए अब जेसी-469557एल),  
06 जून 2004

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 2877365एच अब जेसी-469558एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2878464एक्स अब जेसी-469559डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2004

हवलदार हयात सिंह बेहरेर (सं. 2879050एक्स अब जेसी-469560एल),  
01 जुलाई 2004

हवलदार तेजपाल सिंह (सं. 2880019एक्स अब जेसी-469561एन),  
01 जुलाई 2004

हवलदार जग्गू सिंह (सं. 2877987के अब जेसी-469562डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2004

हवलदार इम्तील हसन (सं. 2879107एफ अब जेसी-469563आई),  
03 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्योष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सोहन लाल (सं. 2878020एन अब जेसी-469564एफ),  
01 जुलाई 2004

हवलदार रघुवीर सिंह शेखावत (सं. 2877305एन अब जेसी-  
469565के), 01 जुलाई 2004

हवलदार फूलचन्द जाट (सं. 2879025आई अब जेसी-469566एम),  
01 जुलाई 2004

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3176370एल अब जेसी-469567पी),  
01 जुलाई 2004

हवलदार केन सिंह (सं. 2875153आई अब जेसी-469568एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2877733एम अब जेसी-469569ए),  
01 अगस्त 2004

हवलदार सरजीत सिंह (सं. 2877595डब्ल्यू अब जेसी-469570पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार सतीश कुमार (सं. 2876765एच अब जेसी-469571एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार प्रभु सिंह (सं. 2878417ए अब जेसी-469572ए),  
06 अगस्त 2004

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 2877288आई अब जेसी-469573एच),  
26 अगस्त 2004

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 2877307आई अब जेसी-469574एल),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार सतबीर (सं. 2877139एल अब जेसी-469575एन),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार भाग सिंह (सं. 2877072एक्स अब जेसी-469576डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2004

हवलदार मंगल सिंह (सं. 2879168आई अब जेसी-469577आई),  
01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क दलबीर सिंह (सं. 2881044एच अब जेसी-  
469578एफ), 01 जुलाई 2004

हवलदार क्लर्क लल्लू राम (सं. 2881148के अब जेसी-  
469579के), 01 जुलाई 2004

हवलदार क्लर्क राम कर्बोर शर्मा (सं. 2881301पी अब जेसी-  
469580आई), 01 सितम्बर 2004

दिवाकर  
अवर सचिव

-----

सं. 41, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कमीशन  
लै. कर्नल बनाया जाता है

दीपक सक्सेना टीए (एम)-1160 एएमसी (टीए), 07 सितम्बर 2003

एम एल शर्मा  
अवर सचिव

सं. 42, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर के पद पर

शालीनी वासुदेवा (एम आर-07982ए) (एम एस-13662एफ) ए एम सी, 25 मार्च 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मनविन्दर पाल सिंह मारवाहा (एम एस-13420वाई) (एम आर-08009के) ए एम सी, 18 जुलाई 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अप्रैल 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

(श्रीमती) अमिता जैन (एम एस-13571एक्स) (एम आर-07994पी) ए एम सी, 12 जनवरी 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

रवीन्द्र सिंह रावत (एम एस-13823वाई) (एम आर-07995एक्स) ए एम सी, 16 जनवरी 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

अनुपम घोषाल (एम एस-13440एम) (एम आर-08004एल) ए एम सी, 26 फरवरी 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

सुरेश कुमार शुक्ला (एम एस-13683एक्स) (एम आर-08010वाई) ए एम सी, 07 अप्रैल 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

रूपम कुमारी (एम आर-07740एक्स) ए एम सी, 04 मार्च 2003

विजय बोरा (एम आर-07883एक्स) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

राकेश शर्मा (एम आर-07898ए) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

कमलेश कुमार सिंह (एम आर-07900एम) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

ज्योति कुमार सिन्हा (एम आर-07913के) ए एम सी, 19 जनवरी 2004

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

निरोज कुमार त्रिपाठी (एफ-24727सी) (एम एस-13772डब्ल्यू) (एम आर-07980पी) ए एम सी, 31 दिसम्बर 2002

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कोमोडोर (व समकक्ष) रैंक में

एच आर अरोरा (एम आर-04182डब्ल्यू) (वा. से. 24712), 01 जुलाई 2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है।

एम के मिश्रा (एम आर-03813एफ) (वा. से. 20951), 23 जून 2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 अप्रैल 2003 से दी जाती है।

एम श्रीवास्तवा  
मेजर जनरल  
अतिरिक्त म.नि.स.से.चि.से.

सं. 43, दिनांक 27 दिसम्बर 2004--थल सेना अनुदेश 33/78 व थल सेना अनुदेश 4/96 द्वारा उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
स्थायी कमीशन  
लैफ्टि से कैप्टन के पद पर

डी आर-10539एक्स रोहित शर्मा, 27 सितम्बर 2002

डी आर-10540एम दिवाकर गर्ग, 10 अक्टूबर 2002

डी आर-10541पी ए चक्रनारायण, 10 नवम्बर 2002

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

वायु सेना

सं. 44, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना  
लेखा शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एस ईरफान (22824), दिनांक 17 जनवरी 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव  
स्क्वाड्रन लीडर  
डी डी पी ओ 3(डी)

सं. 45, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना  
वैमानिक शाखा

विंग कमांडर (सेलेक्ट) के मूल रैंक में

एम एल गहलोत (14184) वै.ई.(यां), दिनांक 01 जून 94

(इनका नाम विंग कमांडर पी एस सैम्यूल (14154) वै. ई. (वै) और आर सेठ (14187) वै. ई. (यां) के बीच में आया।)

## शिक्षा शाखा

विंग कमांडर (सेलेक्ट) के मूल रैंक में

के सिंह (17082) शिक्षा, 25 जून 2001

## वैमानिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एम एल गहलोत (14184) वै. ई. (यां), 09 दिसम्बर 2001

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन सी कूरियन (14153) वै. ई. (वै) और पी के श्रीवास्तव (14160) वै. ई. (वै) के बीच में आयेगा।)

## एस के शुक्ला

उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2बी

-----

## सेना शाखा

सं. 46, दिनांक 28 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04 दिसम्बर 2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

## नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

निरोज कुमार त्रिपाठी (एम एस-13772डब्ल्यू) (ए एफ-24727) (एम आर-07980पी) ए एम सी 31 दिसम्बर 1998 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जाएगी। इसमें के लिए दी गई को पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 18 अगस्त 2003 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

## नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

शालिनी वासुदेवा (एम एस-13662एफ) (एम आर-07982ए) (ए एम सी-25 सितम्बर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 मार्च 1997 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (आकस्ट और ज्ञान) के लिए दी गई 30 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जनवरी 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

(श्रीमती) अमिता जैन (एम एस-13571एक्स) (एम आर-07994पी) (ए एम सी-12 जनवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

12 जनवरी 1997 से हो जाएगी। इसमें एम एस (सर्ज) स्नातकोत्तर योग्यता के लिए दी गई 24 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

लेफ्टिनेन्ट अनिल कुमार (एम एस-14130एन) (एम आर-7987वाई) ए एम सी-18 जनवरी 2001 (इन्टरशिप प्रशिक्षण के पश्चात दिनांक 18 जनवरी 2001 से कप्तान के पद पर पदोन्नति) (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

रवीन्द्र सिंह रावत (एम एस-13823वाई) (एम आर-07995एक्स) (ए एम सी-16 जनवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 जनवरी 1997 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (मेडिसिन) के लिए दी गई 24 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 मार्च 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 21 जनवरी 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

## नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अनुपम घोसाल (एम एस-13440एम) (एम आर-08004एल) (ए एम सी-26 फरवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 26 फरवरी 1997 से हो जाएगी। इसमें एम एस (अप्यलमलजी) के लिए दी गई 24 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

सुरेश कुमार शुक्ला (एम एस-13683एक्स) (एम आर-08010वाई) (ए एम सी-07 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 07 अप्रैल 1999 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 मार्च 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

अजय कुमार डबास (एम एस-14058एच) (एम आर-08012के) (ए एम सी-13 दिसम्बर 2000 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जाएगी। इसमें के लिए दी गई की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

मनविन्दर पाल सिंह मारवाहा (एम एस-13420वाई) (एम आर-08009के) (ए एम सी-18 जनवरी-1998 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 18 जुलाई 1998 से हो जाएगी। इसमें के लिए दी गई 06 महिने की पूर्व अस्थिरता भी सम्मिलित है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जनवरी 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

जार्ज कोशो (एम एस-14332पी) (75761एच) (एम आर-08011एफ) (ए एम सी-29 मई 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जाएगी। इसमें के लिए दी गई की-पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 जनवरी 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

चंगमायम प्रेमचन्द सिंह (एम एस-14189एन) (75731आर) (एम आर-08008एफ) ए एम सी-10 जनवरी 2001। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

एम श्रीवास्तवा

मेजर जनरल

अतिरिक्त डीजीएफएमएस

सेना शाखा

सं. 47, दिनांक 27 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए डी कोर अफसर को अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं और 07 मई 2004 से ए डी कोर में, थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन, स्थाई कमीशन में नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन के पद पर, अल्पकालीन कमीशन से स्थाई कमीशन

07 मई 2004 से

कैप्टन अनूप सिद्धाना गोडा ऐना गोदार, डी आर-10576एल, 07 मई 2004

परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 11 मार्च 2002 से दी जाती है।

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

(सेना शाखा)

शुद्धि पत्र

सं. 48, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--13 मार्च 2004 से राजपत्र सं. 11 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 110 दिनांक 13 फरवरी

2004 में शीर्षक "नियमित सेना" उप शीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "जाट रेजिमेन्ट" के अन्तर्गत :--

के स्थान पर

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3172213एफ अब जेसी-489354एच), 01 सितम्बर 2003

पढ़ा जाए

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3172213एफ अब जेसी-489360डब्ल्यू) 01 सितम्बर 2003

के स्थान पर

हवलदार लिपिक राधा कृष्णन नायर जे (सं. 3176844एफ अब जेसी-489355एल), 01 सितम्बर 2003

पढ़ा जाए

हवलदार लिपिक राधा कृष्णन नायर जे (सं. 3176844एफ अब जेसी-489361वाई), 01 सितम्बर 2003

के स्थान पर

हवलदार लिपिक महावीर प्रसाद यादव (सं. 3176856डब्ल्यू अब जेसी-489356एन), 15 सितम्बर 2003\*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

पढ़ा जाए

हवलदार लिपिक महावीर प्रसाद यादव (सं. 3176856डब्ल्यू अब जेसी-489362एफ), 15 सितम्बर 2003\*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

दिवाकर

अवर सचिव

शुद्धि पत्र

सं. 49, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--भारत के राजपत्र सं. 24 दिनांक 12 जून 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 288 दिनांक 20 मई 2004 में शीर्षक नियमित सेना उप शीर्षक "इन्फैन्ट्री" और मेकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

हवलदार ज्ञान सिंह (14906230एम अब जेसी-419916एक्स), 13 फरवरी 2004\*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

पढ़ा जाए

हवलदार ज्ञान सिंह (14906203एम अब जेसी-419916एक्स),  
13 फरवरी 2004

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
प्येक्टरा 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

जोस थोमस  
अवर सचिव

शुद्धि पत्र

जी एस ब्रांच

सं. 50, दिनांक 24 दिसम्बर 2004--सं. 312 दिनांक 23 अप्रैल  
2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना  
संख्या 21, दिनांक 25 मई 2002 में शीर्षक "प्रादेशिक सेना" के अन्तर्गत  
उप शीर्षक "प्रादेशिक कमीशन" को निम्न प्रकार से संशोधित किया  
जाता है :--

कृते : लै. मिथुल शर्मा (टी ए-42434) इन्फैन्ट्री, 24 सितम्बर 99

पढ़े : लै. मिथुल शर्मा (टी ए-42434) इन्फैन्ट्री, 29 सितम्बर 99

एम एल शर्मा  
अवर सचिव

शुद्धि पत्र

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

सं. 51, दिनांक 27 दिसम्बर 2004--भारत के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय  
की अधिसूचना सं. 537 दिनांक 18 जून 98 को 25 जुलाई 98 प्रकाशित  
किया गया है कि निम्नलिखित शीर्षक सेना के स्थायी आयोग (विशेष सूची)  
में शुद्धि इस प्रकार की जाती है :--

के स्थान पर

4265366एन हव. मनीन्द्रोन सिंघा (एस एल-4505एन) लेफ्ट  
क्यू एम

पढ़ा जाय

4265366एन हव. पी. एच मनीन्द्रोन सिंघा (एस. एल-4505एन) लेफ्ट  
क्यू एम

अरविन्द कुमार  
मेजर

डी ए एम एस 8बी

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 15th January 2005

No. 29, dated 28th December 2004.—The President is pleased to appoint Air Marshal S Krishnaswamy PVSM AVSM VM and Bar ADC (6338) F(P) to be the Chief of the Air Staff with effect from 31 Dec 2001 (Afternoon), in the substantive rank of Air Chief Marshal.

**RANJIT ISSAR**  
Additional Secy.

No. 30, dated 22nd December 2004.—Consequent on being approved for appointment as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Civil Aviation, the services of Shri Prashanta Kumar Mishra, IAS (UP :72), Additional Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Civil Aviation w.e.f. 30.11.2004 (AN).

The President is pleased to appoint Shri A. K. Malhotra, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence, as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry in the scale of pay of Rs. 6500—10,500/- with effect from the forenoon of 1st December 2004, until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 21/9/2004-CS. I, dated 25 March, 2004 subject to the condition that ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officer.

**V. SARASWATHY**  
Dy. Secy.

**(ARMY BRANCH)**

No. 31, dated 24th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

**REGULAR ARMY****SPECIAL LIST****THE GRENADIERS**

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Parmanand Dwivedi (JC-449586Y), 17 July 2004

**SPECIAL LIST****INFANTRY****THE MARATHA LI**

To be Nb Sub (RT)

Shreekant Upadhyay (JC-459283X), 17 Jul 2004

**DIWAKAR**  
Under Secy.

No. 32, dated 28th December 2004.—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION**

To be Lt. (On Prob)

CH Anupama (MR-08038Y), AMC—27 Feb 2004

Avinash Sitaraman (MR-08039F), AMC—27 Feb 2004

G Lakshmi Nair (MR-08040W), AMC—27 Feb 2004

Pooja Gupta (MR-08041Y), AMC—27 Feb 2004

Shambhu Singh (MR-08042F), AMC—27 Feb 2004

Kanchan Kulhari (MR-08044M), AMC—27 Feb 2004

Vimalendu Jha (MR-08045P), AMC—27 Feb 2004

Atul Sahai (MR-08047A), AMC—27 Feb 2004

Anurag Srivastava (MR-08048H), AMC—27 Feb 2004

Dhiraj Kumar Saraf (MR-08049L), AMC—27 Feb 2004

Bhupesh Guleria (MR-08028P), AMC—27 Feb 2004

Manu Chopra (MR-08029X), AMC—27 Feb 2004

Bhartiya Prerna (MR-08030M), AMC—27 Feb 2004

Sachendra Badal (MR-08031P), AMC—27 Feb 2004

Tina Singh (MR-08032X), AMC—27 Feb 2004

Vipra Mangla (MR-08033A), AMC—27 Feb 2004

Virendra Vikram Singh (MR-08034H), AMC—27 Feb 2004

Abha Kumari (MR-08035L), AMC—27 Feb 2004

Shelka Dua (MR-08036N), AMC—27 Feb 2004

Ritwik Chakrabarti (MR-08037W), AMC—27 Feb 2004

**M. SRIVASTAVA**  
Maj Gen.  
Addl. DGAfMS

No. 33, dated 27th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

**REGULAR ARMY****(SHORT SERVICE COMMISSION)**

To be Lt

The undermentioned Officers of SSC (NT-77) Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 20 Mar 2004. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a

period of five years wef 20 Mar 2004 under the provisions of SAI/3/S/98 as amended:—

SS No., Name & Arm/Service

SS-40527X Puneet Bedi, Arty

SS-40528A Surender Singh, AC

SS-40529H Tribhuvan Singh Mankotia, Jag

SS-40530X Prashant Sirkek, Mech

SS-40531A Anil Kumar Sharma, ADA

SS-40532H Birender Pathania, Inf

SS-40535W M Shyam, Inf

SS-40536Y Rishab Suri, Inf

SS-40537F Siddharth Nehra, ASC

SS-40538K Lakhpatt Singh, Inf

SS-40539M Shakti Singh Rathore, Inf

SS-40540F Prabhat Rai, AOC

SS-40542M Varoon Parmar, Inf

SS-40543P Fateh Singh, Sigs

SS-40544X Gaurav Sood, Arty

SS-40545A G R S Raja, Inf

SS-40546H Sarfraz Singh Sanghera, Inf

SS-40547L Limboo Paras, Inf

SS-40548N Vikrant Prasher, Arty

SS-40549W Raut Rushikesh Devidas, Arty

SS-40550L Nitin Rawat, Arty

SS-40551N Deepak Kumar Raut, Inf

SS-40552W B N Prakash, EME

SS-40554F Raghunandan S Hegde, Inf

SS-40555K Karthik R, Inf

SS-40556M Gaurav Nyol, AC

SS-40557P Sharad Tyagi, AOC

SS-40558X Sandeep Singh Chawla, Arty

SS-40559A Katharia Manish Kumar Gagan Singh, Inf

SS-40561X Bharat Verma, Engr

SS-40562A Anubhav Kanchan, Arty

SS-40563H R Kaushik, Inf

SS-40564L Kanishka Baruah, Inf

SS-40565N Tushar Chowdhary, ASC

SS-40567Y Mohd Aslam Khan, AC

SS-40569K Sanal VK, Inf

SS-40570Y Pradeep Kumar Sharma, Arty

SS-40571F Mishra Akhilesh Kumar Om Prakash, Inf

SS-40573M Arvind Rana, ASC

SS-40574P Abhinay Dogra, Inf

SS-40575X Subrat Mishra, Mech

SS-40576A D Sreeram Kumar, Arty

SS-40577H Manish Kumar, Arty

SS-40578L Charandeep Singh Maini, Inf

SS-40579N Deepak Kumar Tiwari, Inf

SS-40580H Sagar Chhetri, Inf

SS-40581L Deepak Moharana, Inf

SS-40582N K Rakesh Singh, ASC

SS-40583W Viplove, Inf

SS-40584Y Kamal Gautam, ADA

SS-40585F Gokhale Amarendra Anant, Inf

SS-40586K Rahul Verma, Arty

SS-40587M Himanshu Negi, Inf

SS-40588P Saurav Dash, AOC

SS-40589X Mahesh K N, Sigs

SS-40590M K R Baby Krishnan, Inf

SS-40591P Piyush Chauhan, Inf

SS-40592X U Sachin, AC

SS-40593A Manu Vasishat, AOC

SS-40594H Neeraj Pandey, Inf

SS-40595L S V Ramsunder, Arty

SS-40596N Anuj Sharma, Inf

SS-40597W Bhatt Hemal Yogesh, ASC

SS-40598Y Manish Jatrana, Inf

SS-40599F Amit Kumar, Inf

SS-40600L Sujoy Majumdar, Mech

SS-40602W Lakshmikanth R, Inf

SS-40603Y Himanshu Joshi, Engr

SS-40604F Raman Raina, AC

SS-40605K Raghawendra, ASC

SS-40606M Ritesh Kumar Bajaj, Arty

SS-40607P Pitre Santosh Vinod, Inf

SS-40608X Prashant Mane, Inf

SS-40609A Sagar Pushp, Inf

SS-40610P Mangesh Rana, Inf

SS-40611X Mayank Malaviya, ADA	SS-40654M S Viswanathan, Inf
SS-40612A Maneesh Mishra, Inf	SS-40655P Sudhir Kalia, Mech
SS-40613H Priyatosh Anil Mangrulkar, EME	SS-40656X Sanbir Singh Keer, Arty
SS-40614L Ashok Kumar Puri, Arty	SS-40658H Dhingra Jayesh Dharmvir, Arty
SS-40615N Yadav Rahul Ankush, Arty	SS-40659L Shashi Kumar Tokas, ASC
SS-40616W Ashiq Hussain, Arty	SS-40661H Deshpande Hemant Sudhir, Inf
SS-40617Y Abeson Jacob, EME	SS-40662L Vishal Vasdev, Inf
SS-40618F Sandeep Joshi, Inf	SS-40663N Abhishek Yadav, ASC
SS-40620Y Kapil Kashyap, Inf	SS-40664W Singh Subhash Umashankar, Inf
SS-40621F Mohit, AOC	SS-40665Y Vivek Rawat, Inf
SS-40622K Shoukat Ali Syed, EME	SS-40666F Gautam Puri, AOC
SS-40623M Manish Chauhan, Arty	SS-40667K Ratheesh Kumar A, Inf
SS-40624P Abhinav Pandey, Inf	SS-40668M Abhinav Sandhu, Engr
SS-40625X Mukherjee Debjit Chanchal, Jag	SS-40669P Gaurav Trivedi, ADA
SS-40626A Chinkhothang Tonsing, Inf	SS-40670K Abhishek Joshi, Arty
SS-40627H Md Sadiq Nabeel Hashmi, ASC	SS-40671M Madhan Kumar T, EME
SS-40628L Prashant S Pillai, Inf	SS-40673X Brij Narayan Singh, Arty
SS-40629N Gurmeet Raturi, Inf	SS-40674A Gaurav Joshi, Inf
SS-40630H Manish Kulhari, Inf	SS-40675H Rohit Sangwan, AC
SS-40631L Kunal Parmar, Arty	SS-40676L Abhishek Srivastava, Inf
SS-40632N Amit Prasad, Arty	SS-40677N Gagandeep Singh Lamba, ASC
SS-40633W Bhagirath Singh Jodha, Inf	SS-40678W Sunil VV, Inf
SS-40634Y Dodul Roy, Arty	SS-40679Y Maneesh Kumar Srivastava, Mech
SS-40635F Shaminder S Mann, AC	SS-40680N Amrendra Prasad Dwivedi, Inf
SS-40636K Aman Singh Jamwal, ADA	SS-40681W Gaurav Tomar, Arty
SS-40637M Manpreet Singh Marwah, Inf	SS-40682Y Shakti Tahlan, AOC
SS-40638P Kulkarni Prashant Kamalakant, Arty	SS-40683F Roopak Gupta, Inf
SS-40640M Amol Kesar, ASC	SS-40684K Abhinaya Sharma, Inf
SS-40642X Anurag Juyal, Inf	SS-40685M Rahul Singh Bishnoi, Inf
SS-40643A Mahesh Narayan Ramachandran, EME	SS-40686P Manish Chandra Rai, Inf
SS-40644H C Jiddin, Int	SS-40687X Chander Mohan Uniyal, Arty
SS-40645L Ashwini Kumar Jha, Inf	SS-40690X Zafrul Karim, Inf
SS-40646N Arup Mukherjee, Engr	SS-40692H Kashyap M A, AC
SS-40648Y Balagopal C, Inf	SS-40693L Siddharth Singh, Inf
SS-40649F Atul Mehta, ADA	
SS-40650W Vikas Kumar Pandey, Sigs	
SS-40651Y Karanjit Singh Brar, AC	
SS-40652F Satyender Singh, Inf	
SS-40653K Arsal Kumar, Inf	

ARVIND KUMAR  
Maj  
DAMS-8B

No. 34, dated 22nd December 2004.—The President is pleased to extend tenure of deputation of Brig. D. S. Nehra



(IC-24601), Chief Director of Purchase in the Army Purchase Organisation, Ministry of Defence, till his successor joins duty or until further orders, whichever is earlier.

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

#### INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

No. 35, dated 23rd December 2004.—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 25.08.2004 to 23.02.2005 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier:—

Shri Man Singh  
Shri TN Mogia  
Shri Het Prakash  
Shri S K Kardam  
Shri P L Mandiratta  
Shri B P Singh  
Shri N C Sahoo  
Shri S Banerjee  
Shri D S Shokeen  
Shri Roop Chand  
Shri Raghubans Behari  
Shri S K Tugnait  
Shri D K Prasad  
Shri Ramesh Chander  
Shri G C Thapliyal  
Shri Chander Prakash  
Smt. Smita Ahuja  
Shri Mam Chand  
Shri Narain Singh  
Shri Richh Pal Singh  
Shri Y C Bajaj  
Shri Bhajan Lal  
Shri DV Arya  
Shri D N Prabhkar  
Shri N K Ahuja  
Shri Maman Chand  
Shri V K Das  
Shri Mohan Lal  
Shri Ved Prakash  
Shri N S Madan  
Shri Mahabir Singh

Shri U S Bhindware  
Shri Khushal Chandra  
Smt. Vidya Kataria  
Shri D K Bhutani  
Shri Kailash Chand  
Shri T Tonsingh  
Shri Ravindra Sah  
Shri R K Sahni  
Shri G C Kansal  
Shri J L Luthra  
Shri J P Meena  
Shri V P Arora  
Shri Bhagwan Sahay  
Shri R N Thakur

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DAS GUPTA  
Dy. Chief Administration Officer (A)

#### (ARMY BRANCH)

No. 36, dated 28th December 2004.—The President is pleased to confirm the under mentioned Officers consequent on the completion of the probationary period:—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Lt. (now Capt) Parikshit Singh Chauhan (MR-07646N),  
AMC—14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Syed Asif Hashmi (MR-07537F), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Sanjay Kumar Dhar (MR-07547L), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Km. Manisha Agarwal (MR-07541K),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) G Mohan Raghav (MR-07647W), AMC—  
14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Sudhir Kumar Singh (MR-07650W),  
AMC—14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Vishan Dev Singh Jamwal (MR-07731W),  
AMC—29 Apr 2002

Lt. (now Capt) Kothuri Chandrika Prasad (MR-07756H),  
AMC—29 Apr 2002

Lt. (now Capt) Santosh Kumar (MR-07421L), AMC—11  
Mar 2000

Lt. (now Capt) Meehakshi Roy (MR-07651Y), AMC—  
14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Prafull Sharma (MR-07540F), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Sarala M (MR-07550L), AMC—07 Mar  
2001

Lt. (now Capt) Ritu Grewal (MR-07730N), AMC—29 Apr  
2002

Lt. (now Capt) Santosh Karade (MR-07562A), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Vijay Kumar Sharma (MR-07563M),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Vivek Kumar Singh (MR-07567Y), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Pravin Kumar Dahiya (MR-07569K),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Vaka Raja Sekhar Reddy (MR-07571F),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) V. Rajendra Prasad (MR-07575X), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Mukul Bajpai (MR-07635F), AMC—  
14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Syed MD Adil (MR-07641P), AMC—  
14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Shamresh Kumar Singh (MR-07642X),  
AMC—14 Aug 2001

Lt. (now Capt) Shashi Kumar (MR-07480X), AMC—  
09 Aug 2000

Lt. (now Capt) Rajeev Chugh (MR-07528A), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Saikat Bhattacharjee (MR-07529H),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Km Preema Sinha (MR-07530X), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Rishikesh Deepk Sane (MR-07531A),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Prakash Narayan Gupta (MR-07533L),  
AMC—07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Km Srujana D (MR-07536Y), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Samarjeet Singh (MR-07554F), AMC—  
07 Mar 2001

Lt. (now Capt) Indramani Pandey (MR-07560P), AMC—  
07 Mar 2001

M SRIVASTAVA  
Maj Gen  
Addl. DGAFMS

#### (ARMY BRANCH)

No. 37, dated 27th December 2004.—The President is pleased to confirm the undermentioned Officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

#### REGULAR ARMY

#### (ARMY DENTAL CORPS)

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### CONFIRMATION

Capt Sri NG Krishan Kumar Nair (DS-12099N), 10 Apr  
2003

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl. DGDS

No. 38, dated 24th December 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major ( )

Sub Satyapal Singh (JC-216368W), 01 Oct 2004

Sub Ravindran K (JC-216443P), 01 Oct 2004

Sub Balbir Singh (JC-418003K), 01 Oct 2004

Sub Madho Parsad (JC-418212F), 01 Oct 2004

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dilip Kumar Mishra (JC-418942M), 01 Jan 2004

Nb Sub Salunkhe Suresh Shamrao (JC-419130L), 01 Jun  
2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 26 May 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Azad Singh (JC-418716P), 18 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Ratan Prasad (JC-418836N), 18 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Atar Singh (JC-418837W), 18 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mahendra Pratap (JC-418995L), 18 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Keshar Singh (JC-419011P), 20 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Durga Singh (JC-419025P), 27 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gajraj Singh (JC-419149K), 24 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Munna Singh Parihar (JC-419219X), 22 Sep  
2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hem Singh (JC-419268A), 01 Jun 2004\*

Nb Sub Gopal Singh (JC-418838Y), 18 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Darban Singh (JC-419376K), 21 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Keshav Deo (JC-419225L), 11 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sate Singh (JC-419395P), 21 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajinder Singh (JC-419469Y), 25 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devi Singh Rana (JC-419503N), 21 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub C Nagarajan (JC-419035Y), 18 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sampurna Nand (JC-419076H), 01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurdev Singh (JC-419132W), 01 Sep 2004

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-419193N), 01 Sep 2004

Nb Sub Jai Krishan (JC-419296M), 01 Sep 2004

Nb Sub Vijay Tiwari (JC-419323L), 01 Sep 2004

Nb Sub Ayodhya Prasad Singh (JC-419365X), 01 Sep  
2004

Nb Sub Raje Singh (JC-419442F), 01 Sep 2004

Nb Sub Prithvi Raj (JC-419506F), 10 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurdass Ram Chonoriya (JC-419507K), 09 Sep  
2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-418784H), 01 Oct 2004

Nb Sub Mahaveer Singh (JC-419077L), 01 Oct 2004

Nb Sub Shiv Kumar (JC-419102Y), 06 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-419106P), 01 Oct 2004

Nb Sub Ram Niwas Gurjar (JC-419194W), 06 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Surender Kumar Thakur (JC-419203M), 04 Oct  
2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kulbhushan Singh (JC-419210H), 04 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohd Sadiq (JC-419229F), 01 Oct 2004

Nb Sub Man Singh (JC-419271A), 06 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satbir Singh Duhan (JC-419283P), 01 Oct 2004

Nb Sub Satyavir Singh (JC-419288N), 03 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sanu CV (JC-419297P), 01 Oct 2004

Nb Sub Sujoy Kumar Mahanty (JC-419298X), 01 Oct  
2004

Nb Sub Prem Singh Rathore (JC-419320X), 05 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chhatar Pal Singh (JC-419345K), 06 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sarop Singh (JC-419352A), 01 Oct 2004

Nb Sub Radhey Shyam (JC-419356W), 06 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suresh Kumar Koundle (JC-419405N), 01 Oct 2004

Nb Sub Sher Singh (JC-419436N), 01 Oct 2004

Nb Sub Dhani Ram Verma (JC-419508M), 05 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Raj (JC-419546H), 01 Oct 2004

Nb Sub Khushal Singh (JC-419617Y), 05 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lekh Raj (JC-419638P), 01 Oct 2004

Nb Sub Ashok Raj Sharma (JC-419654M), 05 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

#### (ARMOURED CORPS)

##### To be Nb Ris

Dfr V Shanmugam (No. 01074865X now JC-240734N), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr T Udayakumar (No. 01066881A now JC-240783W), 27 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Pol Shahaji Sampat (No. 01070107H now JC-240785F), 13 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Dharmbir Singh (No. 01065966K now JC-240795L), 08 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahavir Prasad (No. 01069478Y now JC-240798Y), 14 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Mohammed Shafik (No. 01068793H now JC-240799F), 08 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr R Doshi (No. 01067775N now JC-240804F), 17 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Dhruv Singh Chauhan (No. 01070206L now JC-240806M), 25 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Suresh Singh (No. 01069991A now JC-240809A), 15 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Rakesh Kumar (No. 01067468W now JC-240814L), 26 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Shiv Singh (No. 01059492X now JC-240843A), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 1999 without effect on pay and allowances).

Dfr S Nataraja Sundaram (No. 01067769A now JC-240849F), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Darmadasan P. N. (No. 01069713M now JC-240850W), 21 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Udayabhan Singh (No. 01070029W now JC-240851Y), 21 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Kumar Dubey (No. 01069428N now JC-240852F), 17 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Raj Bahadur (No. 01066610H now JC-240853K), 18 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Velu D (No. 01070404W now JC-240854M), 21 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Gadkari Sayaji Ram Chandra (No. 01068897K now JC-240856X), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Binod Kumar Singh (No. 01069981W now JC-240858H), 23 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Sathees Kumar G (No. 01069160F now JC-240859L), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Braj Raj (No. 01071209L now JC-240861H), 17 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Ramu Ram Raika (No. 01072137Y now JC-240862L), 20 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Niwas (No. 01074077N now JC-240866F), 01 Sep 2004

Dfr Ranjit Singh (No. 01070559L now JC-240867K), 01 Sep 2004

Dfr Ravendra Kumar Singh (No. 01070094W now JC-240868M), 01 Sep 2004

Dfr Sukh Ram Pal Chauhan (No. 01070070M now JC-240869P), 01 Sep 2004

Dfr Darshan Singh (No. 01069728P now JC-240873X), 04 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Braja Sunder Behera (No. 01069354K now JC-240874A), 01 Sep 2004

Dfr Rajendra Singh Baghel (No. 01071550H now JC-240875H), 01 Sep 2004

Dfr Vinayak Chavan (No. 01066900A now JC-240876L), 02 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Roop Basant (No. 01076925A now JC-240881W), 01 Sep 2004

JOSE THOMAS  
Under Secy.

REGULAR ARMY  
ARMY SERVICE CORPS  
(SUPPLY)

No. 39, dated the 22nd December 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar : Clk (GD)

Nb Sub Chandra Mani Bhusan (JC-641421P), 01 May 2004

Nb Sub Bimalendu Bhattacharya (JC-641274X), 06 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Radha Krishnan Namboodiri Kumbha Nillatha (JC-641422X), 01 Jun 2004

Nb Sub Ramesh Pandey (JC-641424H), 01 Jun 2004

Nb Sub Abhimanyu Bahadur Singh (JC-641425L), 01 Jul 2004

Nb Sub Muralcedharan Nair K (JC-641426N), 10 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Prashanta Ray (JC-641427W), 17 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Gopal Singh Yadav (JC-641428Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Kishori Lal (JC-641430W), 01 Aug 2004

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-641432F), 01 Aug 2004

Nb Sub Girdhar Singh Kushwah (JC-641433K), 01 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Tapan Kumar Saha (JC-641435P), 11 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Rajendra Prasad Kharwar (JC-641437A), 01 Sep 2004

Nb Sub Harihara Chaudhary (JC-641440A), 01 Sep 2004

Nb Sub Sukh Lal (JC-641436X), 01 Sep 2004

Nb Sub Subodh Kumar Singh (JC-641308A), 01 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 22 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Nandan Singh (JC-641513P), 01 Oct 2004

R. CHATURVEDI  
Under Secy.

No. 40, dated the 24th December 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
INFANTRY  
THE MADRAS REGIMENT  
To be Subedar Major  
Sub Vijayan KK (JC-182830A), 01 Apr 2004

Sub Kannaiah M (JC-205085P), 01 Jun 2004

Sub Somanathan NV (JC-201000W), 01 Jun 2004

Sub Bevara Trinadam (JC-219661Y), 01 Jun 2004

Sub SP Mathialagam (JC-194551W), 25 Aug 2004

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) George Britto (JC-438751Y), 01 Oct 2003

Nb Sub (Clk) Rajendran Nair S (JC-438752F), 01 May 2004

Nb Sub (Clk) Sudhakaran M (JC-438760A), 14 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub (Clk) Kumar R (JC-438784K), 01 Jul 2004

To be Subedar Major

Sub (Musn) Kunhikannan CK (JC-438465X), 01 Aug 2004

To be Subedar

Nb Sub Radhakrishna Pillai VP (JC-438904X), 01 Nov 2003

Nb Sub Ambili Kaladharan A (JC-438907L), 03 Dec 2003

Nb Sub Omkar Reddy (JC-438906H), 01 Jul 2004

Nb Sub Maharudrayya Kalmath (JC-438928F), 07 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces).

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Mukundan Pangat (JC-438787X), 01 Jul 2004

Nb Sub (Clk) Subramanian V (JC-438788A), 01 Jul 2004

Nb Sub (Clk) V Joseph Daniel (JC-438789H), 01 Aug 2004

To be Subedar

Nb Sub Somarajan R (JC-438903P), 01 Aug 2003

Nb Sub Medikurti Haneef Sahab (JC-438929K), 01 Nov 2003

Nb Sub D Sudhakaran (JC-438816F), 06 Apr 2004

Nb Sub Rajeev VB (JC-438915K), 16 Apr 2004

Nb Sub K Kunasegaran (JC-438819P), 21 Apr 2004

Nb Sub N Venkataiah (JC-438823X), 23 Apr 2004

Nb Sub K Velayudam (JC-438982P), 01 May 2004

Nb Sub Sujana M (JC-439034X), 11 May 2004

Nb Sub Surendran C (JC-438983K), 01 Jun 2004

Nb Sub Sanjeev Kumar MG (JC-438748Y), 08 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Bhemineni Sankara Naidu (JC-439145P), 14 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Parameswara Rajan G (JC-438849M), 09 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 15 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub S Samannan (JC-438948P), 23 Jun 2004

Nb Sub K Subburaj (JC-439156F), 02 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub Seenivasan V (JC-438952X), 01 Aug 2004

Nb Sub Vivekanandan V (JC-439020X), 01 Jun 2004

Nb Sub A Savarinathen (JC-439031K), 03 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Nb Sub John KJ (JC-548566N), 17 Jun 2004

Nb Sub Subbiah Devaraj (JC-438896K), 01 Jul 2004

Nb Sub Devaraj M (JC-438944Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Premarajan P (JC-438916M), 10 Jul 2004

Nb Sub K Rama Chandran Nair (JC-439158M), 10 Jul 2004

Nb Sub Babu S (JC-439021A), 01 Sep 2004

To be Nb Sub

Hav P Ramesh (No. 2591208H now JC-439392H), 17 Mar 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Mar 2004 without effect on pay and allces).

Hav Rajagopalan E (No. 2585201H now JC-439418M), 06 Mar 2004

Hav Premarajan P (No. 2584154K now JC-439422P), 05 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Hav Raman N (No. 2586363A now JC-439424A), 22 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Hav Nanda Kumar C (No. 2883615P now JC-439406X),  
01 Jun 2004

Hav Sunil Babu G (No. 2883921K now JC-439416F), 16  
Jun 2004

Hav Rajavel K (No. 2590200K now JC-439419P), 01 Jul  
2004

Hav Minine Rodrigues (No. 2585668N now JC-  
439421M), 01 Jul 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Chandran U (No. 2588505L now JC-439407A),  
09 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jul  
2004 without effect on pay and allces).

Hav (Clk) Shashikant Pandey (No. 2588622W now JC-  
439409L), 05 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jul  
2004 without effect on pay and allces).

Hav (Clk) Dinesh Singh (No. 2588734W now JC-  
439410A), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Mohan Prasad (No. 2588735Y now JC-  
439411H), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Binay Kumar Singh (No. 2588738M now JC-  
439412L), 04 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jul  
2004 without effect on pay and allces).

Hav (Clk) Anil Kumar (No. 2588739P now JC-439413N),  
01 Jul 2004

THE RAJPUT REGIMENT

To be Sub Major

Sub Maj Shiv Kumar Singh, SM (JC-205548Y), 05 Aug  
2001

Sub Maj Ramesh Singh (JC-208323F), 01 Nov 2003

Sub Maj Braj Bhan Singh (JC-220942F), 01 Jan 2004

Sub Maj Narpat Singh (JC-185750H), 01 Apr 2004

Sub Maj Lalita Prasad Singh (JC-478027X), 01 May 2004

Sub Maj Bhoor Singh (JC-478038K), 01 Jun 2004

Sub Maj Dharam Pal (JC-212595Y), 24 Jun 2004

Sub Maj Rajesh Kumar Singh (JC-203672F), 01 Jul 2004

Sub Maj Udmi Ram (JC-478104F), 01 Jul 2004

Sub Maj Sat Pal Singh (JC-205893M), 07 Jul 2004

To be Subedar Major Clerk

Sub Maj Clk Ramji Lal Bunker (JC-216820A), 01 Aug  
2004

Sub Maj Clk Parkash Chandra Rana (JC-220176W), 01  
Aug 2004

To be Subedar Clerk

Sub Clk Mahender Singh (JC-478635Y), 01 Jul 2004

Sub Clk Arun Kumar Sharma (JC-478636F), 01 Jul 2004

Sub Clk Lal Chand (JC-478674X), 01 Aug 2004

Sub Clk Raj Kumar Pandey (JC-478675A), 01 Aug 2004

Sub Clk Shitla Bax Singh (JC-478676H), 01 Aug 2004

Sub Clk Madan Singh (JC-478687P), 01 Aug 2004

To be Subedar

Sub Rajendra Singh (JC-478728N), 01 Feb 2003

Sub Diwan Singh (JC-479063P), 01 Aug 2003

Sub Amar Chand (JC-478723P), 01 Sep 2003

Sub Mahendra Singh (JC-479113P), 01 Sep 2003

Sub Mohan Singh (JC-478964P), 01 Oct 2003

Sub Gopal Singh (JC-478965X), 08 Oct 2003

Sub Samaya Singh (JC-478807H), 01 Nov 2003

Sub Jag Ram (JC-478827W), 01 Nov 2003

Sub Devi Singh (JC-478747Y), 01 Dec 2003

Sub Devi Singh Rajput (JC-479116H), 01 Dec 2003

Sub Dharam Pal (JC-478767M), 01 Jan 2004

Sub Sube Singh (JC-478923L), 01 Jan 2004

Sub Baljeet Singh (JC-478928K), 01 Jan 2004

Sub Roop Chand (JC-478818P), 05 Jan 2004

Sub Arjun Singh (JC-478671K), 18 Jan 2004

Sub Pradip Deb Nath (JC-478673P), 01 Feb 2004

Sub Ayodhya Prasad Dwivedi (JC-478752K), 01 Feb 2004

Sub Ramesh Chander Singh (JC-478828Y), 01 Feb 2004

Sub Madu Ram (JC-478863F), 01 Feb 2004

Sub Rajvir Singh (JC-478967H), 01 Feb 2004

Sub Maharaj Singh (JC-478977M), 01 Feb 2004

Sub Rana Pratap Singh (JC-479053L), 25 Feb 2004

Sub Dil Shad (JC-479005A), 01 Mar 2004

Sub Om Prakash (JC-479005L), 01 Mar 2004

Sub Inder Pal Singh (JC-478804P), 13 Mar 2004

Sub Bal Raj (JC-479069W), 01 Apr 2004

Sub Mawasi Ram (JC-478810H), 01 May 2004

Sub Suresh Kumar (JC-478993K), 01 May 2004



Sub Inder Raj Singh (JC-478376K), 20 May 2004

Sub Sant Ram (JC-478924N), 01 Jun 2004

Sub Jagdish (JC-478938N), 01 Jun 2004

Sub Sugar Singh (JC-479029P), 01 Jun 2004

Sub Jeet Singh (JC-478872H), 01 Jul 2004

Sub Ram Karan (JC-479035H), 01 Aug 2004

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Hari Pal Singh (No. 2983988X now JC-479429F), 01 Aug 2004

Hav Clk Ram Mehar Singh (No. 2984006M now JC-479430W), 01 Aug 2004

Hav Clk Pooran Mal (No. 2977271A now JC-479431Y), 01 Aug 2004

Hav Clk Indravir Singh (No. 2983862X now JC-479432F), 01 Sep 2004

To be Naib Subedar

Hav Chatra Ram (No. 2984584F now JC-479433K), 14 Mar 2004

Hav Gajraj Singh (No. 2985183Y now JC-479434M), 19 Aug 2004\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Vaseem Khan (No. 2980529N now JC-479435P), 27 Jun 2004

Hav Bir Singh (No. 2981235M now JC-479436X), 28 Jun 2004

Hav Ghan Shyam Singh (No. 2981654K now JC-479437A), 12 Aug 2004\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tursi Ram (No. 2985187P now JC-479438H), 01 Jul 2004

Hav Devi Singh (No. 2983057N now JC-479439L), 05 Aug 2004\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Suraj Mal Gujar (No. 2985635W now JC-479440A), 01 Jul 2004

Hav Raja Singh (No. 2982178H now JC-479441H), 19 Jul 2004\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jati Ram Gurjar (No. 2983279H now JC-479442L), 01 Jul 2004

Hav Ramesh Chandra Gosh (No. 2988919L now JC-479443N), 04 Jul 2004

Hav Ajay Adak (No. 2989104W now JC-479444W), 27 Jul 2004

Hav Balwant Singh (No. 2980592H now JC-479445Y), 01 Aug 2004

Hav Salim Ansari (No. 2979580F now JC-479446F), 01 Aug 2004

Hav Laxman Singh (No. 2980045N now JC-479447K), 01 Aug 2004

Hav Ram Prasad (No. 2979579M now JC-479448M), 01 Aug 2004

Hav Jai Kishan (No. 2980974M now JC-479449P), 01 Aug 2004

Hav Kamar Singh (No. 2981692A now JC-479450K), 01 Aug 2004

Hav Shish Ram (No. 2985252K now JC-479451M), 01 Aug 2004

Hav Ram Avtar Gurjar (No. 2982088F now JC-479452P), 01 Aug 2004

Hav Babu Lal Gurjar (No. 2982988L now JC-479453X), 01 Aug 2004

Hav Inder Singh (No. 2985660P now JC-479454A), 04 Aug 2002\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagveer Singh (No. 7431137H now JC-479455H), 01 Aug 2004

Hav Ramesh Kumar (No. 2983409A now JC-479456L), 01 Aug 2004

Hav Jagdish Chander (No. 2980944P now JC-479457N), 18 Aug 2004

Hav Kanwal Singh (No. 2979030Y now JC-479458W), 01 Sep 2004

Hav Ashok Kumar (No. 2984684M now JC-479459Y), 01 Sep 2004

Hav Gurdial Singh (No. 2982576K now JC-479460N), 01 Sep 2004

Hav Noor Mohammad (No. 2980530N now JC-479461W), 01 Sep 2004

Hav Raj Pal Singh (No. 2981442Y now JC-479462Y), 01 Sep 2004

Hav Yas Pal Singh (No. 2982613M now JC-479463F), 01 Sep 2004

Hav Jay Mal Singh (No. 2986073W now JC-479464K), 01 Sep 2004



Hav Man Mohan Singh (No. 2980235A now JC-479465M), 01 Sep 2004

Hav Tapan Sarkar (No. 2983141P now JC-479466P), 01 Sep 2004

Hav Sher Singh (No. 2979690W now JC-479467X), 01 Sep 2004

Hav Satya Bhan Singh (No. 2982849F now JC-479468A), 01 Sep 2004

Hav Satyavir (No. 2979693K now JC-479469H), 01 Sep 2004

Hav Hari Shanker Singh Chauhan (No. 2982189P now JC-479470X), 01 Sep 2004

Hav Sawai Singh Gujar (No. 2979223Y now JC-479471A), 01 Sep 2004

Hav Suresh Chandra (No. 2980111L now JC-479472H), 01 Sep 2004

Hav Rajinder Singh Gour (No. 2981129N now JC-479473L), 01 Sep 2004

Hav Bhanwar Singh (No. 2979494W now JC-479474N), 01 Sep 2004

Hav Gada Ram Gurjar (No. 2986038N now JC-479475W), 01 Sep 2004

Hav Suresh Chand (No. 2982469H now JC-479476Y), 01 Sep 2004

#### THE MARATHA LI

##### To be Nb Sub

Hav Jadhav Vishnu Rajaram (No. 2783180H now JC-459377P), 22 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hule Gangaram Tayappa (No. 2777639N now JC-459378X), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ghule Ramesh Gangaram (No. 2786767M now JC-459379A), 07 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dilip Raghunath Zambre (No. 2779157X now JC-459380P), 24 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dharne Vijay Babu (No. 2781409X now JC-459381X), 14 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tajane Nandakishor Jagannath (No. 2783529P now JC-459382A), 27 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tawate Dnyandev Tukaram (No. 2780949K now JC-459383H), 06 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balaram Belgaonkar (No. 2785595W now JC-459384L), 21 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Vilas Shamrao (No. 2777221L now JC-459385N), 20 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Khot Keshav Tukaram (No. 2778786H now JC-459386W), 25 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nikam Arun Vishnu (No. 2778135M now JC-459387Y), 25 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Chavan Shrikant Raghunath (No. 2782543P now JC-459388F), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Malhari Pawashe (No. 2772231L now JC-459389K), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rupanawar Bapu Balabhim (No. 2777146M now JC-459390Y), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bauskar Balwant Gundu (No. 2781372F now JC-459391F), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhaip Shankar Babu (No. 2779317M now JC-459392K), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Baliram Namdeo Mane (No. 2775570W now JC-459393M), 21 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Liladhar Nath (No. 2781137H now JC-459394P), 02 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

## To be Sub Maj

Sub Chidambara ES (JC-204033M), 01 Aug 2004

Sub Kurale Subhana Appa (JC-204017P), 01 Oct 2004

## To be Sub

Nb Sub Pawar Vasant Kisan (JC-458908P), 19 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suresh Ray Jadhav (JC-458974X), 06 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shamrao Tukaram Patil (JC-458934W), 12 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jit Pal Singh (JC-458943X), 21 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balu Gangadhar Mate (JC-458997Y), 14 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Desai Shivaji Shankar (JC-458825K), 14 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balu Sitaram Gholap (JC-458886F), 20 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Patil Muralidhar Devappa (JC-458902N), 27 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Laturkar Chandrakant Parashram (JC-458918Y), 14 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Patil Krishna Ramchandra (JC-458952Y), 04 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ambre Yuvaraj Tanaji (JC-458958A), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Babu Kurangi (JC-459065Y), 30 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baban Rajaram Jadhav (JC-458990P), 11 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Surve Maruti Sakhamam (JC-458940K), 23 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 May 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Krishna Jyotiba Balekundri (JC-458585X), 26 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Walmik Kachruji Shaharwale (JC-458778X), 04 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajendra Ramchandra Mahadik (JC-458813P), 05 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhalerao Shankar Pundlikrao (JC-458814X), 19 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Utekar Suryakant Dada (JC-458887K), 05 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Belgaonkar Ashok Sivarai (JC-458925P), 05 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Barade Bhaskar Baburao (JC-459054M), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Patil Bhagwan Ganapati (JC-459057A), 23 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gaikwad Vijay Mahadeo (JC-458744K), 27 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suresh Mahadeo Jaokar (JC-458928H), 14 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shreenivasappa K (JC-459107A), 26 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pawar Shamrao Sadashiv (JC-458839K), 15 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Motari Sambhaji (JC-458926X), 04 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub J Kassim (JC-458951W), 13 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Padle Raju Dnyanu (JC-458880A), 01 Oct 2004

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ashok Kumar Singh (JC-458717A), 30 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 19 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Kulamani Biswal (JC-458728M), 06 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Bachan Lal (JC-519121Y), 03 May 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 May 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suraj Parkash (JC-519290A), 01 Dec 2003

Nb Sub Pritam Chand Rana (JC-519322X), 01 Jan 2004

Nb Sub Hem Singh (JC-519346F), 19 Jun 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Krishan Lal (JC-519090K), 01 Feb 2004

Nb Sub Gurdip Singh Gautam (JC-519167F), 01 Apr 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dhyan Singh (JC-519567N), 01 Feb 2004

Nb Sub Ranjit Singh (JC-519402P), 19 Mar 2004

Nb Sub Balbir Singh (JC-519518K), 06 Aug 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 11 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Manohar Lal (JC-519553N), 21 Jul 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 29 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ravinder Singh (JC-519481P), 01 Jun 2004

Nb Sub Dile Ram (JC-519407N), 09 Jul 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pardeep Kumar (JC-519408W), 26 Jul 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shiv Kumar (JC-519473W), 01 Aug 2004

Nb Sub Bhanu Dutt (JC-519507Y), 01 Aug 2004

Nb Sub Kashmir Singh (JC-519520H), 01 Aug 2004

Nb Sub Kikar Singh (JC-519528P), 16 Sep 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kehar Singh (JC-519588K), 01 Sep 2004

Nb Sub Nehru Lal (JC-519554W), 03 Oct 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Som Parkash (JC-519604W), 01 Sep 2004

To be Nb Sub

Hav Sarwan Singh (No. 3981726Y now JC-519920P), 26 Jun 2004

Hav Prem Nath (No. 3981443X now JC-519921X), 09 Jul 2004

Hav Balbir Singh Kajat (No. 3981602K now JC-519922A), 01 Aug 2004

Hav Jai Chand Rana (No. 3981876P now JC-519923H), 01 Aug 2004

Hav Bhagwan Singh (No. 3983726Y now JC-519924L), 01 Aug 2004

Hav Vijay Kumar (No. 3984706W now JC-519925N), 01 Aug 2004

Hav Tara Chand (No. 3982300K now JC-519926W), 01 Aug 2004

Hav Shatar Singh (No. 3981502Y now JC-519927Y), 17 Aug 2004

Hav Rama Kant (No. 3984128M now JC-519907L), 17 May 2004+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Sagar (No. 3981592L now JC-519908N), 01 Aug 2004

Hav Chamel Singh (No. 3981746M now JC-519909W), 01 Aug 2004

Hav Balvinder Singh (No. 3981831P now JC-519910L), 01 Aug 2004

Hav Ganesh Raj (No. 3982020W now JC-519911N), 01 Aug 2004

Hav Ranbir Singh (No. 3982040K now JC-519912W), 01 Aug 2004

Hav Pritam Singh (No. 3982432X now JC-519913Y), 01 Aug 2004

Hav Tek Chand (No. 3982441Y now JC-519914F), 01 Aug 2004

Hav Hoshiar Singh (No. 3983169K now JC-519915K), 01 Aug 2004

Hav Raj Kumar (No. 3983096H now JC-519916M), 01 Aug 2004

Hav Kamal Singh (No. 3983062P now JC-519917P), 01 Aug 2004

Hav Rattan Singh (No. 3983131A now JC-519918X), 01 Aug 2004

#### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Gopal Singh Thakur (No. 3983740K now JC-519919A), 01 Jun 2004

#### To be Nb Sub

Hav Kashmir Singh (No. 3983614X now JC-519882K), 12 Apr 2004+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal Sapolia (No. 3981504K now JC-519883M), 12 Apr 2004

Hav Manohar Singh (No. 3983107K now JC-519884P), 04 May 2004

Hav Prakash Chand Guleria (No. 3982288N now JC-519885X), 09 May 2004

Hav Piar Chand (No. 3980460L now JC-519886A), 01 Jun 2004

Hav Taranter Singh Jamwal (No. 3980951F now JC-519887H), 23 Jun 2004

Hav Parmodh Kumar Chauhan (No. 3988974X now JC-519888L), 01 Jul 2004

Hav Sukhdev Kumar (No. 3988528W now JC-519889N), 01 Jul 2004

Hav Tilak Raj (No. 3981201P now JC-519890H), 25 Apr 2004

Hav Gopal Singh (No. 3981364H now JC-519891L), 01 Jun 2004

Hav Surjit Singh (No. 3981577W now JC-519892N), 01 Jun 2004

Hav Rajinder Singh (No. 3988417H now JC-519893W), 01 Jul 2004

Hav Narayan Singh Khemta (No. 3988986M now JC-519894Y), 01 Jul 2004

Hav Ashwani Kumar (No. 3988468M now JC-519895F), 01 Jul 2004

Hav Vijay Kumar (No. 3981821L now JC-519896K), 17 Jul 2004

Hav Tilak Raj (No. 3980330H now JC-519897M), 01 Aug 2004

Hav Shamsher Singh (No. 3983727A now JC-519898P), 03 Aug 2004+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Chand (No. 3983800N now JC-519899X), 01 Aug 2004

Hav Avinash Singh (No. 3981817H now JC-519900F), 01 Aug 2004

Hav Ramesh Kumar (No. 3982156A now JC-519901K), 01 Aug 2004

Hav Raghubir Singh (No. 3981372F now JC-519902M), 01 Aug 2004

Hav Rakesh Kumar (No. 3988896L now JC-519903P), 01 Aug 2004

Hav Chint Ram (No. 3987261A now JC-519904X), 01 Aug 2004

Hav Roshan Lal (No. 3981389P now JC-519905A), 01 Aug 2004

#### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Swarn Lal (No. 3983531N now JC-519906H), 01 Jul 2004

#### JAK LI

#### To be Nb Sub (Clerks)

Hav (Clk) Debendra Patra (No. 9088168A now JC-593219F), 07 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004)

Hav (Clk) Bijay Mahto (No. 9088193Y now JC-593248W), 17 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004)

Hav (Clk) Jasvinder Singh (No. 9088342F now JC-593247N), 01 Aug 2004

To be Naib Subedar (GD)

Hav Dhani Ram (No. 9086140F now JC-593234W), 09 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Dalar Singh (No. 9086466X now JC-593235Y), 21 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Mar 2004)

Hav Sukhdev Singh (No. 9085699M now JC-593236F), 09 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 2004)

Hav Joginder Paul (No. 9086557F now JC-593237K), 21 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2004)

Hav Chuni Lal (No. 9084722H now JC-593238M), 31 May 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2004)

Hav Mohd Shafi (No. 9086046X now JC-593239P), 31 May 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2004)

Hav Rehumtullah Khan (No. 9085289M now JC-593240K), 15 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2004)

Hav Chambail Singh (No. 9084721A now JC-593241M), 29 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2004)

Hav Partap Singh (No. 9087643X now JC-593242P), 29 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 May 2004)

Hav Puran Singh (No. 9086114A now JC-593243X), 15 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2004)

Hav Din Mohd (No. 9086898M now JC-593244A), 15 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2004)

Hav Romesh Chander (No. 9086852K now JC-593245H), 15 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2004)

Hav Abdul Gani Bhat (No. 9087271Y now JC-593246L), 31 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004)

#### THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Muhi Gogoi (No. 4353372K now JC-548951X), 08 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Hav SR Lalbiakliana (No. 4354439K now JC-548991Y), 31 Mar 2004

Hav Subal Sinha (No. 4354042X now JC-548992F), 31 Mar 2004

Hav Harka Bahadur Thapa (No. 4356284Y now JC-548985L), 25 May 2004/01 Sep 2003\*

Hav Nandeswar Saikia (No. 4354357F now JC-548995P), 31 Mar 2004

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 4356283W now JC-548997A), 19 Jun 2004/01 Mar 2004\*

Hav Ranjit Sinha (No. 4351598W now JC-548998H), 02 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Anil Chandra Das (No. 4352990H now JC-548999L), 07 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Bhadra Kanta Saikia (No. 4353109Y now JC-549000M), 02 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Durlov Nath (No. 4354121M now JC-549002X), 11 Jun 2004/06 Apr 2004\*

Hav Manindra Chandra Ray (No. 4354152W now JC-549003A), 02 Jun 2004/01 May 2004\*

Hav Atul Ch Koch (No. 4354114W now JC-549001P), 17 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Indramani Singha (No. 4354643H now JC-549004H), 01 Jul 2004/28 May 2004\*

Hav Bipul Rajbongshi (No. 4354066F now JC-549005L), 01 Jul 2004

Hav Rikshan Narzary (No. 4354129Y now JC-549006N), 15 Jun 2004/01 Oct 2003\*

Hav Sinaram Amsi (No. 4354522F now JC-549007W), 02 Jun 2004/16 Nov 2003\*

Hav Bom Bahadur Kharkha (No. 4354863M now JC-549008Y), 08 Jun 2004/01 Jan 2004\*

Hav Babul Ch Bharali (No. 4353194M now JC-549009F), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Radha Kanta Singha (No. 4353216A now JC-549010W), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Fate Bahadur Chetri (No. 4354050W now JC-549011Y), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Uttam Ch Das (No. 4354175H now JC-549012F), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Rotinbmang Hmar (No. 4354351A now JC-549013K), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

Hav Imti Ao (No. 4354292Y now JC-549014M), 19 Jun 2004/15 Mar 2004\*

Hav M Jangpao (No. 4354823L now JC-549015P), 19 Jun 2004/15 Mar 2004\*

Hav Sushem Sinha (No. 4354041P now JC-549019L), 15 Jun 2004/01 May 2004\*

Hav RT Bechung Anal (No. 4355878F now JC-549022L), 10 Jul 2004/25 May 2004\*

Hav Pradip Ch Baishya (No. 4353031X now JC-549023N), 06 Jun 2004

Hav Priya Ram Dutta (No. 4353256F now JC-549024W), 06 Jun 2004

Hav Budbar Deka (No. 4353707W now JC-549025Y), 06 Jun 2004

Hav Vankhuma (No. 4354451K now JC-549026F), 06 Jun 2004

Hav Dipak Borah (No. 4357750A now JC-549028M), 06 Jun 2004

\*(Granted seniority w.e.f.)

#### THE GARHWAL RIFLES

##### To be Sub Maj

Sub Pushkar Singh Bhandari (JC-528146M), 01 May 2004

Sub Siv Singh Rawat (JC-528194M), 01 May 2004

Sub Ravi Datt Sharma (JC-528196X), 01 Jun 2004

Sub Shiv Prakash (JC-528197A), 01 Jun 2004

##### To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Jeeva Nd Dobhal (JC-221022W), 01 Apr 2004

Sub (Clk) Virender Singh Dahiya (JC-528129M), 01 May 2004

##### To be Sub

Nb Sub Harendra Singh (JC-529263K), 01 Jan 2004

Nb Sub Kanchan Singh (JC-528994L), 01 Apr 2004

Nb Sub Daljeet Singh Rawat (JC-528995N), 01 Apr 2004

Nb Sub Chander Mohan Sharma (JC-529024P), 01 Apr 2004

Nb Sub Lila Bahadur (JC-529025X), 01 Apr 2004

Nb Sub Amba Dutt (JC-529070K), 01 Apr 2004

Nb Sub Digpal Mani (JC-529109L), 01 Apr 2004

Nb Sub Asha Ram (JC-529119P), 01 Apr 2004

Nb Sub Balwant Singh (JC-529121M), 01 Apr 2004

Nb Sub Girish Chand Naithani (JC-529316X), 01 Apr 2004

Nb Sub Raghubir Singh (JC-529184P), 01 Apr 2004

Nb Sub Jaipal Singh (JC-529185X), 01 Apr 2004

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-529249X), 01 Apr 2004

Nb Sub Harendra Singh (JC-529317A), 01 Apr 2004

Nb Sub Manglu Lal (JC-529309F), 01 Apr 2004

Nb Sub Gajendra Singh (JC-529319L), 01 Apr 2004

Nb Sub Surender Singh (JC-529341W), 01 Apr 2004

Nb Sub Charat Singh (JC-529354N), 01 Apr 2004

Nb Sub Rajendra Singh (JC-529355W), 01 Apr 2004

Nb Sub Devendra Singh (JC-529356Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Birendra Singh (JC-529217P), 25 Apr 2004

Nb Sub Matwar Singh (JC-528936F), 01 May 2004

Nb Sub Bhagwat Singh (JC-529233M), 01 May 2004

Nb Sub Ganesh Prasad (JC-529247M), 01 May 2004

Nb Sub Bikram Singh (JC-529057A), 05 May 2004

Nb Sub Dwarika Prasad (JC-528976H), 06 May 2004

Nb Sub Chandan Singh (JC-529026A), 21 May 2004

Nb Sub Kamal Singh (JC-529196K), 26 May 2004

Nb Sub Ganga Datt (JC-528659Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Shital Singh (JC-529122P), 01 Jun 2004

Nb Sub Sishupal Singh (JC-529150F), 01 Jun 2004

Nb Sub Ganga Singh (JC-529117K), 01 Jun 2004

Nb Sub Mahavir Prasad Kandwal (JC-529170P), 01 Jun 2004

Nb Sub Dhanbir Singh (JC-529224L), 01 Jun 2004

Nb Sub Bhagat Singh (JC-529225N), 01 Jun 2004

Nb Sub Ranjit Singh (JC-529268H), 01 Jun 2004

Nb Sub Kunwer Singh (JC-529290N), 01 Jun 2004

Nb Sub Ravindra Singh (JC-529323N), 01 Jun 2004

##### To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Jhabar Singh (JC-528670A), 01 Oct 2003

Nb Sub (Clk) Ravindra Mohan Singh (JC-528706N), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Trilok Singh Rana (JC-528774F), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Harsh Singh Negi (JC-528790Y), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Pradyuman Singh (JC-528791F), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Ramesh Rawat (JC-528778X), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Virender Singh (JC-528795X), 01 May 2004

Nb Sub (Clk) Ramendra Singh (JC-528839K), 01 Jun 2004

To be Sub (RT)

Nb Sub ((RT) Harihar Prasad Pandey (IC-528145K), 01 Jan 2004

Nb Sub (RT) Parashwar Prasad (JC-528144F), 01 Jan 2004

To be Nb Sub

Hav Sabar Singh (No. 4064960Y now JC-529628N), 25 Mar 2004/01 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh (No. 4063270H now JC-529629W), 04 Mar 2004

Hav Shiv Singh (No. 4062495Y now JC-529630L), 01 Apr 2004

Hav Bikram Singh (No. 4061992W now JC-529631N), 03 Apr 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pravendra Singh (No. 4064328F now JC-529632W), 01 Apr 2004

Hav Surbir Singh (No. 4065022L now JC-529633Y), 01 Apr 2004

Hav Virender Singh (No. 4062822Y now JC-529634F), 25 Apr 2004

Hav Bir Singh (No. 4064214W now JC-529635K), 05 May 2004

Hav Sarbeshwar Prasad (No. 4062190Y now JC-529637P), 01 Jun 2004

Hav Bir Singh (No. 4062365W now JC-529638X), 01 Jun 2004

Hav Manbar Singh (No. 4062453M now JC-529639A), 01 Jun 2004

Hav Rajendra Singh (No. 4062617X now JC-529640P), 01 Jun 2004

Hav Manbar Singh (No. 4065174M now JC-529641X), 01 Jun 2004

Hav Dhiraj Singh (No. 4064471N now JC-529642A), 01 Jun 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Bharat Singh (No. 4061240M now JC-529636M), 01 Jun 2004

To be Nb Sub

Hav Prithvi Singh (No. 4062951Y now JC-529643H), 07 Jul 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Singh (No. 4062875X now JC-529644L), 01 Feb 2004

Hav Narender Singh (No. 4065198W now JC-529645N), 26 Jul 2004/01 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 4065991L now JC-529647Y), 10 Jul 2004/06 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Parsad (No. 4064455W now JC-529648F), 12 May 2004

Hav Lakhpatt Singh (No. 4062971M now JC-529649K), 13 Jul 2004/13 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 4065115A now JC-529650Y), 21 Jul 2004/01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harsh Mani (No. 4065064X now JC-529651F), 12 Jun 2004

Hav Tejpal Singh Bhandari (No. 4067462X now JC-529652K), 29 Jun 2004/19 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupendra Singh (No. 4062778A now JC-529653M), 21 Jun 2004

Hav Anil Kumar (No. 4066437M now JC-529654P), 01 Jul 2004

Hav Surender Singh (No. 4064089X now JC-529655X), 01 Jul 2004

Hav Girish Chandra (No. 4062554A now JC-529656A), 01 Jul 2004

Hav Kailash Chandra Kotnala (No. 3391151L now JC-529657H), 01 Jul 2004

Hav Buthar Singh (No. 4062631K now JC-529658L), 01 Jul 2004

Hav Birendra Singh (No. 4063183P now JC-529659M), 01 Jul 2004

## To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Shyama Datt (No. 4064167K now JC-529646W), 04 Jun 2004/16 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

## SPECIAL LIST

## THE PUNJAB REGIMENT

## To be Naib Subdar (Clks)

Hav (Clk) Madan Lal Sharma (2473935H now JC-429547Y), 20 May 2004\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Sat Pal Dahiya (2475862A now JC-429575L), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Banki Lal Sharma (2475870Y now JC-429576N), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Ram Chander (2475877H now JC-429548F), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Agith V (2475878L now JC-429549K), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Pradeep Kumar Thakur (2476500L now JC-429577W), 01 Jul 2004

## To be Naib Subedars

Hav Manjit Singh (No. 2475945L now JC-429550Y), 08 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kawaljit Singh (No. 2476854N now JC-429551F), 29 Feb 2004

(Granted ante dated seniority wef 15 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (No. 2473106P now JC-429540P), 26 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 23 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bishan Dass (No. 2473417H now JC-429541X), 14 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 04 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar (No. 2481363F now JC-429552K), 23 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 06 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Joginder Singh Thakur (No. 2479897N now JC-429553M), 04 May 2004

(Granted ante dated seniority wef 16 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Balwinder Singh (No. 2476401H now JC-429562N), 14 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lokender Singh (No. 2478863N now JC-429542A), 17 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 02 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh, SM (No. 2474578X now JC-429543H), 15 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 06 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagir Singh (No. 2474768K now JC-429554P), 16 May 2004

(Granted ante dated seniority wef 18 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Gir (No. 8032069P now JC-429544L), 26 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 23 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kewal Singh (No. 2471703L now JC-429545N), 19 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Swinder Singh (No. 2476306W now JC-429563W), 19 May 2004

(Granted ante dated seniority wef 05 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dilbagh Singh (No. 2474315Y now JC-429555X), 28 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Avtar Singh (No. 2477194N now JC-429564Y), 10 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 2475400N now JC-429556A), 06 May 2004

(Granted ante dated seniority wef 13 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurbachan Singh (No. 2474031P now JC-429557H), 20 May 2004.

(Granted ante dated seniority wef 13 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gulzar Singh (No. 2474243A now JC-429578Y), 18 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).



Hav Gurdeep Singh (No. 2475433Y now JC-429558L),  
28 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Ajit Singh (No. 2478113P now JC-429559N), 04  
May 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Rattan Singh (No. 2479028Y now JC-429546W),  
08 Apr 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Jai Ram (No. 2473861Y now JC-429560H), 29 Apr  
2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Dev Raj (No. 2474414F now JC-429565F), 04 Jun  
2004

(Granted ante dated seniority wef 10 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Sudesh Kumar (No. 2474842A now JC-429566K),  
10 Apr 2004

Hav Avtar Singh, SM (No. 2477591M now JC-429567M),  
20 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 10 Apr 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Bir Singh (No. 2478367M now JC-429568P), 10  
Apr 2004

Hav Narender Singh Thakur (No. 2472316H now JC-  
429561L), 26 May 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Naranjan Singh (No. 2476242W now JC-429579F),  
28 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Sukhwinder Singh (No. 2476310Y now JC-  
429580W), 01 Jun 2004

Hav Nanak Singh (No. 2477057P now JC-429569X), 01  
Jun 2004

Hav Jasvir Singh (No. 2478303F now JC-429570M), 01  
Jun 2004

Hav Daulat Singh (No. 2478379F now JC-429571P), 01  
Jun 2004

Hav Lakhvir Singh (No. 2484362K now JC-429581Y),  
22 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 2475101P now JC-429582F), 29  
Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Dalip Singh (No. 2474268M now JC-429583K), 18  
Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2476019M now JC-429584M),  
22 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Ghara Singh (No. 2472772N now JC-429585P), 22  
Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 2475090N now JC-429572X),  
14 Jun 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without  
effect on pay and allowances).

Hav Vishwa Nath Sharma (No. 2475605H now JC-  
429573A), 01 Jun 2004

Hav Om Parkash Verma (No. 2471670L now JC-  
429574H), 12 Jun 2004

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Ram Chander (No. 3179414H now JC-489534L),  
01 Jun 2004

Hav Krishan Chander Sharma (No. 3174963Y now JC-  
489535N), 01 Jul 2004

Hav Dharam Chand (No. 3178703L now JC-489536W),  
02 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul  
2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 3180660A now JC-489537Y),  
01 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul  
2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rajpal Singh (No. 3175174Y now JC-489538F), 24  
Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dalvir Singh (No. 3176017Y now JC-489539K), 01  
Aug 2004

Hav Kheta Ram Bhakher (No. 3180875Y now JC-489540Y), 01 Aug 2004

### THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD/CLK (GD))

Hav Santosh Kumar Alda (No. 4262078W now JC-559294Y), 20 Mar 2004/15 Dec 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Blacius Majhi (No. 4261782A now JC-559295F), 14 Jun 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar Singh (No. 4260608F now JC-559296K), 20 Feb 2004/01 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bijay Kumar Lakra (No. 4261061W now JC-559297M), 25 May 2004/01 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Taruna Kumar Sahoo (No. 4260839X now JC-559298P), 31 May 2004/01 Mar 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav John Lakra (No. 4261203H now JC-559299X), 17 Mar 2004/01 Mar 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kusheswar Singh (No. 4259248K now JC-559300F), 07 Jun 2004/01 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Narayan Prasad (No. 4259905H now JC-559301K), 07 Jun 2004/01 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kailash Chandra Lenka (No. 4261496Y now JC-559302M), 12 Apr 2004/01 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Prafulla Kumar Nanda (No. 4265800P now JC-559303P), 05 May 2004/01 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pramod Prasad Jha (No. 4262652K now JC-559304X), 18 May 2004/18 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Christopher Hemrom (No. 4262055P now JC-559305A), 07 Jun 2004/21 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bharat Lal Kachhi (No. 4262167P now JC-559306H), 29 May 2004/01 May 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Awadh Singh (No. 4260610Y now JC-559307L), 17 Jun 2004/02 May 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Virendra Singh (No. 4261469P now JC-559308N), 14 Jun 2004/04 May 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lallu Sah (No. 13614844Y now JC-559309W), 03 Jul 2004/04 May 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kanhaiya Lal Prasad (No. 4263760A now JC-559310L), 07 Jun 2004/07 May 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lalan Singh (No. 4260993W now JC-559311N), 15 Jun 2004/01 Jun 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Guna Nidhi Barik (No. 4264160K now JC-559312W), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Anjun Kumar Samal (No. 4264165H now JC-559313Y), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Ram Bhan (No. 4264203N now JC-559314F), 14 Jul 2004/01 Jul 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Rajbir Singh (No. 4264204W now JC-559315K), 09 Jul 2004/01 Jul 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Krushna Chandra Nayak (No. 4264163X now JC-559316M), 01 Jul 2004

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Ganga Bahadur Thapa (No. 5345013X now JC-612559F), 10 May 2004@

@(Granted seniority w/o effect on pay and allowances wef 01 Apr 2004).

Hav Resham Bahadur Thapa (No. 5345533H now JC-612560W), 01 May 2004@

@(Granted seniority w/o effect on pay and allowances wef 18 Apr 2004).

Hav Durga Bahadur Thapa (No. 5345250F now JC-612561Y), 01 May 2004

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5345408Y now JC-612362F), 01 May 2004

Hav Hum Bahadur Gurung (No. 5345546A now JC-612563K), 01 Jul 2004

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5345066W now JC-612564M), 01 Jul 2004

Hav Lok Bahadur Thapa (No. 5344764M now JC-612565P), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Krishna Bahadur Thapa Chhetri (No. 5345258N now JC-612566X), 01 Aug 2004

Hav Bhim Bahadur Gurung (No. 5345574M now JC-612567A), 01 Aug 2004

#### 11 GR

##### To be Subedar

Nb Sub Dhan Bahadur Bhujel (JC-634359L), 01 Sep 2004

Nb Sub Ganesh Prasad Limbu (JC-634365Y), 01 Sep 2004

Nb Sub Nar Prasad Limbu (JC-634392H), 01 Sep 2004

##### To be Nb Sub

Hav Ram Kumar Rai (No. 9417374N now JC-634569L), 01 Sep 2004

Hav Man Bahadur Khadka (No. 9418138Y now JC-634571H), 10 Sep 2004#

#(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Sep 2004).

Hav Bir Man Tamang (No. 9417690M now JC-634553A), 10 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Feb 2004).

Hav Dig Bahadur Rai (No. 9415898W now JC-634554H), 28 Jun 2004#

#(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 May 2004).

Hav Budi Raj Rai (No. 9415884W now JC-634555L), 09 Jul 2004\$

\$(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jul 2004).

Hav Sang Tshering Lepcha (No. 9416973F now JC-634556N), 19 Jul 2004%

%(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jul 2004).

Hav (Clk) Tapan Kumar Dash (No. 9417467H now JC-634557W), 01 Aug 2004

Hav Arjun Tamang (No. 9415934W now JC-634558Y), 02 Aug 2004&

&(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2004).

Hav Indra Prakash Tamang (No. 9416136P now JC-634559F), 02 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2004).

Hav Prakash Chandra Tamang (No. 9417243H now JC-634560W), 26 Aug 2004+

+(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jul 2004).

Hav Lila Bahadur Rai (No. 9416903H now JC-634561Y), 23 Aug 2004\*\*

\*\* (Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jul 2004).

Hav Santa Bahadur Rai (No. 9417903P now JC-634562F), 12 Aug 2004++

++(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2004).

Hav Shiva Prasad Subba (No. 9418582P now JC-634563K), 23 Aug 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2004).

Hav Nar Bahadur Tamang (No. 9417567N now JC-634564M), 23 Aug 2004#

#(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2004).

Hav Shiv Raj Pradhan (No. 9418087W now JC-634565P), 01 Sep 2004

Hav Dawa Sing Tamang (No. 9416047W now JC-634566X), 01 Sep 2004

Hav Aita Bahadur Limbu (No. 9416507M now JC-634567A), 01 Sep 2004

Hav Nar Bahadur Rai (No. 9416147F now JC-634568H), 01 Sep 2004

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (No. 3175376A now JC-489549N), 07 Jul 2004

Hav Surendra Singh (No. 3176794F now JC-489550H), 07 Jul 2004

Hav Hukama Ram (No. 3177089P now JC-489551L), 07 Jul 2004

Hav Udavir Singh (No. 3180338N now JC-489552N), 29 Jul 2004

Hav Rajvir Singh, SC (No. 3179446L now JC-489542K), 27 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dalbir Singh Parihar (No. 3176751M now JC-489543M), 01 Jul 2004

Hav Balsher (No. 3177688P now JC-489544P), 01 Jul 2004

Hav Jagdish Prasad (No. 3177768M now JC-489545X), 01 Jul 2004

Hav Sub Ram (No. 3180353H now JC-489546A), 01 Aug 2004

Hav Bijender Singh (No. 3175683X now JC-489547H), 08 Aug 2004

Hav Bijender Singh (No. 3177145H now JC-489548L), 08 Aug 2004

Hav Vijay Singh Jat (No. 3174403M now JC-489511K), 02 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rameshwar Singh (No. 3176074A now JC-489512M), 18 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Chand (No. 3177380F now JC-489513P), 01 Feb 2004

Hav Hari Ram Jat (No. 3179256Y now JC-489514X), 01 Feb 2004

Hav Rajender Prasad Kundu (No. 3179346L now JC-489515A), 05 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurnam Singh (No. 3180609A now JC-489516H), 01 Jun 2004

Hav Dharam Singh (No. 3180649F now JC-489517L), 24 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Samwal Singh (No. 3176599K now JC-489518N), 25 Jun 2004

Hav Nand Kwar (No. 3175512L now JC-489519W), 01 Jul 2004

Hav Rattan Singh, SM (No. 3175998F now JC-489520L), 01 Jul 2004

Hav Omvir Singh (No. 3177164N now JC-489521N), 01 Jul 2004\*

Hav Bachhu Singh (No. 3176945P now JC-489522W), 16 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Ram Rapswal (No. 3177108P now JC-489523Y), 01 Jul 2004

Hav Hawa Singh (No. 3177130A now JC-489524F), 01 Jul 2004

Hav Shiv Ram Singh (No. 3175067X now JC-489525K), 31 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3175431L now JC-489526M), 01 Jul 2004

Hav Rohtash (No. 3177623F now JC-489527P), 01 Jul 2004

Hav Daryav Singh (No. 3177920P now JC-489528X), 22 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chander (No. 3177923H now JC-489529A), 01 Jul 2004

Hav Vazir Singh (No. 3175641L now JC-489530P), 01 Jul 2004

Hav Gopal Ram Choudhary (No. 3174734N now JC-489531X), 01 Aug 2004

Hav Om Parkash (No. 3178166L now JC-489532A), 01 Aug 2004

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Gurbachan Singh (JC-498007L), 01 Oct 2004

To be Subedar

Nb Sub Parminder Singh (JC-499092L), 05 Oct 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Avtar Singh (JC-498856M), 13 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 27 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Gurnam Singh (JC-498999M), 21 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Chanan Singh (JC-499096F), 25 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Balbir Singh, SC (JC-499042A), 01 Oct 2004

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk Chanchal Singh (JC-498776P), 25 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Clk Baldev Singh (JC-498778A), 07 Oct 2004  
(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)

To be Subedar Major

Sub Balvir Singh (JC-196860X), 01 Jun 2004

Sub Surat Singh (JC-208105N), 01 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 03 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

To be Subedar

Nb Sub Maghar Singh (JC-499150K), 19 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Santokh Singh (JC-498946N), 01 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 06 May 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Balbir Singh (JC-499105X), 14 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 18 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Sukhminder Singh (JC-499103M), 14 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Sawroop Singh (JC-499047Y), 22 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Gurnam Singh (JC-499068P), 26 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 03 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Darshan Singh (JC-498931L), 01 Oct 2004

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-498953K), 01 Oct 2004

To be Nb Sub

Hav Major Singh (No. 3382210L now JC-499457P), 13 Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Devinderjit Singh (No. 3389364A now JC-499458X), 26 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Joginder Singh (No. 3382439K now JC-499459A), 17 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Jaswinder Singh (No. 3384592Y now JC-499460P), 18 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Sukhwinder Singh (No. 3381830P now JC-499461X), 11 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Lakhbir Singh (No. 3386731W now JC-499462A), 24 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Gurnam Singh (No. 3386050N now JC-499463H), 15 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Subhash Chand (No. 3380705Y now JC-499464L), 03 Sep 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

To be Nb Sub

Hav Kashmir Singh (No. 3385992X now JC-499444X), 04 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Surinder Singh (No. 3386036F now JC-499445A), 04 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Mohinder Singh (No. 3387350F now JC-499446H), 27 Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Harbans Singh (No. 3386529H now JC-499447L), 18 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Sarabjit Singh (No. 3388573L now JC-499448N), 04 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Mukhtar Singh (No. 3386386N now JC-499449W), 16 Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Kuldeep Singh (No. 3388133X now JC-499450L), 1 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Joginder Singh (No. 3384741F now JC-499451N), 12 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Jaswinder Singh (No. 3384904K now JC-499452W), 12 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Gurtej Singh (No. 3384910X now JC-499453Y), 12 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Awtar Singh (No. 3385536M now JC-499454F), 01 Aug 2004

#### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Kalmander Singh (No. 14912234H now JC-499455K), 06 Aug 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

#### THE PARACHUTE REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Zile Singh (No. 13614545A now JC-412887L), 01 Jun 2004

Hav Hari Singh (No. 13614867A now JC-412888N), 01 Jun 2004

Hav Ajit Singh (No. 13615163H now JC-412889W), 26 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Badam Singh (No. 13615645X now JC-412890L), 01 Jan 2004

Hav Gyana Ram Khilery (No. 13616002M now JC-412891N), 01 Jun 2004

Hav Suryawanshi Kamlakar Vishwanath (No. 13617091H now JC-412892W), 01 Jun 2004

Hav Mandlik Sanjay Sambhaji Rao (No. 13617451N now JC-412893Y), 25 Jun 2004

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Altaf Hussain (No. 2981889W now JC-412894F), 01 Jun 2004

Hav Chattar Singh (No. 13614291N now JC-412895K), 17 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rani Dan Singh (No. 13615020H now JC-412896M), 26 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rohitashav (No. 13615950K now JC-412897P), 08 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Madan Lal (No. 13748487F now JC-412898X), 19 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Inder Singh (No. 13748941X now JC-412899A), 13 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

#### LADAKH SCOUTS

##### To be Naib Subedar (GD)

Hav Gulam Abas (No. 9923265A now JC-588346M), 25 May 2004/01 Apr 2004@

Hav Skarma Samstan (No. 9923280P now JC-588347P), 06 Apr 2004/01 Apr 2004@

Hav Tsewang Nurboo (No. 9923284L now JC-588348X), 02 Apr 2004/01 Apr 2004@

Hav Phunchok Rafstan (No. 9923285N now JC-588349A), 02 Apr 2004/01 Apr 2004@

Hav Sonam Dorjay (No. 9922288F now JC-588350P), 01 Apr 2004

Hav Tashi Gonbo (No. 9923292K now JC-588351X), 17 May 2004/01 May 2004@

Hav Tundup Wangial (No. 9923295X now JC-588352A), 08 Jun 2004/01 May 2004@

Hav Ishe Chhetan (No. 9923297H now JC-588353H), 20 May 2004/01 May 2004@

Hav Chhetan Namgial (No. 9923300X now JC-588354L), 21 Jun 2004/01 Jun 2004@

Hav Tashi Angdu (No. 9923140H now JC-588355N), 29 Jun 2004/01 Jun 2004@

Hav Paldan Dawa (No. 9922770W now JC-588356W), 15 Jun 2004/01 Jun 2004@

Hav Chhewang Nurbu (No. 9923281X now JC-588357Y), 02 Aug 2004/01 Jun 2004@

##### To be Naib subedar Clerk (GD)

Hav Clk Mohamad Sultan Wani (No. 9923011H now JC-588358F), 01 Jun 2004

Hav Clk Ashok Kumar Sharma (No. 9923012L now JC-588359K), 03 Jun 2004/01 Jun 2004@

Hav Clk Kuldip Singh (No. 9923014W now JC-588360Y), 01 Jul 2004

Hav Clk Ram Kumar (No. 9923015Y now JC-588361A), 01 Jul 2004

@(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances)

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Nirmal Singh (No. 13745967F now JC-579696F), 29 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 Nov 2003.)

Hav Souim Mouri (No. 13741648X now JC-579697A), 07 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004.)

Hav Ajit Singh (No. 13746155A now JC-579698H), 01 Jan 2004

Hav Prithi Chand (No. 13743843N now JC-579699L), 22 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004.)

Hav Kulwant Singh (No. 13743849P now JC-579700P), 01 Jan 2004

Hav Baldev Dass Sharma (No. 13744363W now JC-579701X), 19 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004.)

Hav Sansar Chand (No. 13744365F now JC-579702A), 01 Jan 2004

Hav Basu Dev (No. 13744367M now JC-579703H), 01 Jan 2004

Hav Udham Singh (No. 13745764X now JC-579704L), 01 Jan 2004

Hav Nand Lal Thakur (No. 13745783H now JC-579705N), 01 Jan 2004

Hav Ram Lal (No. 13745785H now JC-579706W), 01 Jan 2004

Hav Dilbhag Singh (No. 13745813P now JC-579707Y), 01 Jan 2004

Hav Subhash Chand (No. 13745703A now JC-579708F), 09 Feb 2004

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 25 Jan 2004.)

Hav/Clk Gyan Singh Pal (No. 13749733P now JC-579709K), 04 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav/Clk Bhagwan Singh Chaudhary (No. 13749737L now JC-579710Y), 03 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Jiwan Lal (No. 13742128Y now JC-579711F), 05 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Ashok Kumar (No. 13742294M now JC-579712K), 07 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Balwant Singh (No. 13743709H now JC-579713M), 01 Feb 2004

Hav Khem Singh (No. 13747218K now JC-579714P), 01 Feb 2004

Hav Dalbir Singh (No. 13748661K now JC-579715X), 05 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Mohan Lal (No. 13743176L now JC-579716X), 04 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Daya Sagar (No. 13744481K now JC-579717H), 01 Feb 2004

Hav Ram Dass (No. 13744032P now JC-579718L), 04 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004.)

Hav Subhash Chander (No. 13744331N now JC-579719N), 01 Feb 2004

Hav Joginder Singh (No. 13744818F now JC-579720H), 01 Feb 2004

Hav Madan Lal (No. 13743818P now JC-579670H), 01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 19th Oct 2003).

Hav Bir Singh Thapa (No. 13745379N now JC-579671L), 24 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Raj Kumar Thakur (No. 13744002X now JC-579672N), 10 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Ashok Singh (No. 13743972 now JC-579673W), 10 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).



Hav Mani Ram (No. 13743112A now JC-579674Y), 11 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Dec 2003).

Hav/Clk Jagdish Chand (No. 13749045W now JC-579675F), 01 Jan 2004

Hav/Clk Suresh Kumar Yadav (No. 13749571P now JC-579676K), 01 Jan 2004

Hav/Clk Narender Kumar (No. 13749574H now JC-579677M), 01 Jan 2004

Hav Mohan Man Sherstha (No. 13745497F now JC-579678P), 01 Jan 2004

Hav Neta Ram (No. 13742873Y now JC-579679X), 10 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Ram Lal (No. 13744397K now JC-579680M), 16 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Shiv Ram (No. 13744617H now JC-579681P), 01 Jan 2004

Hav Ramesh Chand Surial (No. 13743660X now JC-579682X), 12 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Sarjit Singh Rana (No. 13744360H now JC-579683A), 13 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Mohan Lal (No. 13745697X now JC-579684H), 01 Jan 2004

Hav Joginder Pal (No. 13744497P now JC-579685L), 13 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Dhanbir Singh Rana (No. 13744517X now JC-579686N), 19 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Parbhat Singh (No. 13745313X now JC-579687W), 01 Jan 2004

Hav Sudarshan Singh (No. 13744552A now JC-579688Y), 13 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Ajit Singh (No. 13744547P now JC-579689F), 11 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Ranjit Singh (No. 13744641Y now JC-579690W), 11 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Kashmir Singh (No. 13744647A now JC-579691Y), 15 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Ashok Kumar (No. 13613344P now JC-579692F), 16 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Tarseam Dass (No. 13744784Y now JC-579693K), 15 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Nirmal Singh (No. 13744889H now JC-579694M), 01 Jan 2004

Hav Raj Mal (No. 13745907M now JC-579695P), 08 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

#### THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Balbir Singh (No. 2879904M now JC-469506X), 01 May 2004.

To be Nb Sub

Hav Harish Chandra (No. 16011711H now JC-469507A), 21 Mar 2004/S-28 Sep 2003.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Sep 2003 without effect on pay & allces)

Hav Narendra Singh (No. 2874700W now JC-469508X), 08 Mar 2004/01 Mar 2004.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay & allces).

Hav Jagdish Chander (No. 2883858A now JC-469509L), 22 Mar 2004.

Hav Shamsher Singh (No. 2883360A now JC-469510A), 01 Apr 2004.



Hav Indraj Singh (No. 2875391L now JC-469511H), 01 May 2004.

Hav Pyare Lal (No. 2877049K now JC-469512L), 01 May 2004.

Hav Sher Singh (No. 2876433Y now JC-469513N), 01 Jun 2004.

Hav Narender Kumar Shivrayan (No. 2877501N now JC-469514W), 01 Jun 2004.

Hav Pratap Singh (No. 2877528L now JC-469515Y), 01 Jun 2004.

Hav Kitab Singh (No. 2877217X now JC-469516F), 01 Jun 2004.

Hav Inder Singh (No. 2877147K now JC-469517K), 01 Jun 2004.

Hav Ram Phool Singh (No. 2878998H now JC-469518M), 01 Jun 2004.

Hav Hari Kishan (No. 2883723Y now JC-469519P), 01 Jun 2004.

Hav Narpat Singh Shekhawat (No. 2879033Y now JC-469520K), 01 Jun 2004.

Hav Shiv Dan Singh (No. 2878738X now JC-469521M), 01 Jun 2004.

Hav Ram Kumar (No. 2877091H now JC-469522P), 01 Jun 2004.

Hav Omvir Singh (No. 2880698A now JC-469523X), 01 Jun 2004.

Hav Dnarbendra Singh (No. 2877640X now JC-469524A), 01 Jun 2004.

Hav Raj Singh (No. 2880409A now JC-469525H), 21 Jun 2004/01 Jun 2004\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Khayali Ram (No. 2884191W now JC-469526L), 01 Jun 2004.

Hav Raj Kumar (No. 2876671L now JC-469527N), 06 Jun 2004.

Hav Hardewa Ram Bajroliya (No. 2876744M now JC-469528W), 09 Jun 2004.

Hav Nafe Singh (No. 2878623K now JC-469529Y), 28 Jun 2004.

Hav Paramjit (No. 2883608Y now JC-469530N), 01 Jul 2004.

Hav Dalpat Singh (No. 2877555P now JC-469531W), 01 Jul 2004.

Hav Gajraj Singh (No. 2876810K now JC-469532Y), 01 Jul 2004.

Hav Satya Prakash (No. 2877891F now JC-469533F), 01 Jul 2004.

Hav Rajendra Prasad (No. 2879370M now JC-469534K), 01 Jul 2004.

Hav Lal Bihari Singh (No. 2880891M now JC-469535M), 01 Jul 2004.

Hav Vikram Singh (No. 2879587W now JC-469536P), 01 Jul 2004.

Hav Rajendra Kumar Singh (No. 2879658M now JC-469537X), 01 Jul 2004.

Hav Prahalad Singh Rathore (No. 2884388M now JC-469538A), 01 Jul 2004.

Hav Mahipal Singh (No. 2876753N now JC-469539H), 25 Jul 2004.

Hav Ramesh Singh Raghaw (No. 2881179 now JC-469540X), 01 Aug 2004.

Hav Shambhu Singh (No. 2878193L now JC-469541A), 01 Apr 2004.

Hav Hukam Singh (No. 2878079N now JC-469542H), 12 Jun 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Satveer Singh Rawat (No. 2879776A now JC-469543L), 01 Apr 2004

Hav Mohan Singh (No. 2878040F now JC-469544N), 01 May 2004

Hav Vijendra Kumar (No. 2883657L now JC-469545W), 20 Jun 2004/S-01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Multan Singh (No. 2882129L now JC-469546Y), 01 Jun 2004

Hav Chanderpall Singh (No. 2877505K now JC-469547F), 01 Jun 2004

Hav Satyaveer Singh (No. 2881783P now JC-469548K), 01 Jun 2004

Hav Mahesh Chand (No. 2878772X now JC-469549M), 01 Jun 2004

Hav Goverdhan Singh Shekhawat (No. 2881156H now JC-469550F), 01 Jun 2004

Hav Shiv Narayan Singh Tomar (No. 2877358M now JC-469551K), 11 Jul 2004/S-01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Bhanwar Singh (No. 2877845M now JC-469552M), 27 Jun 2004/S-01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Gain Singh Gurjar (No. 2878821P now JC-469553P), 05 Jun 2004/S-01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Narayan Singh (No. 2878827W now JC-469554X), 01 Jun 2004

Hav Rajendar Singh Shekhawat (No. 2879771F now JC-469555A), 01 Jun 2004

Hav Rajendra Singh (No. 2876697A now JC-469556H), 02 Jun 2004

Hav Jabar Singh (No. 2881267A now JC-469557L), 06 Jun 2004

Hav Sukhbir Singh (No. 2877365H now JC-469558N), 01 Jul 2004

Hav Surender Singh (No. 2878464X now JC-469559W), 01 Jul 2004

Hav Hayat Singh Bħarh (No. 2879050X now JC-469560L), 01 Jul 2004

Hav Tej Pal Singh (No. 2880019X now JC-469561N), 01 Jul 2004

Hav Jagu Singh (No. 2877987K now JC-469562W), 01 Jul 2004

Hav Chhabil Dass (No. 2879107F now JC-469563Y), 03 Jul 2004/S-01 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay & Allces.)

Hav Sohan Lal (No. 2878020N now JC-469564F), 01 Jul 2004

Hav Raghubeer Singh shekhawat (No. 2877305N now JC-469565K), 01 Jul 2004

Hav Phool Chand Jat (No. 2879025Y now JC-469566M), 01 Jul 2004

Hav Mohan Singh (No. 3176370L now JC-469567P), 01 Jul 2004

Hav Kan Singh (No. 2875153Y now JC-469568X), 01 Aug 2004

Hav Bhanwar Singh (No. 2877733M now JC-469569A), 01 Aug 2004

Hav Sarjit Singh (No. 2877595W now JC-469570P), 01 Aug 2004

Hav Satish Kumar (No. 2876765H now JC-469571X), 01 Aug 2004

Hav Parbhu Singh (No. 2878417A now JC-469572A), 06 Aug 2004

Hav Surender Kumar (No. 2877288Y now JC-469573H), 26 Aug 2004

Hav Pratap Singh (No. 2877307Y now JC-469574L), 01 Sep 2004

Hav Satyabir (No. 2877139L now JC-469575N), 01 Sep 2004

Hav Bhag Singh (No. 2877072X now JC-469576W), 01 Sep 2004

Hav Mangal Singh (No. 2879168Y now JC-469577Y), 01 Sep 2004

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Dalvir Singh (No. 2881044H now JC-469578F), 01 Jul 2004

Hav Clk Lallu Ram (No. 2881148K now JC-569579K), 01 Jul 2004

Hav Clk Ram Kanwar Sharma (No. 2881301P now JC-469580Y), 01 Sep 2004

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 41, dated 24th December 2004—The President is pleased to make the following promotion :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Deepak Saxena TA (M)-1160, AMC (TA), 07 Sep 2003

M L SHARMA  
Under Secy.

No. 42, dated 28th December 2004—The President is pleased to make the promotion of the under mention AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

#### (REGULAR ARMY)

#### PERMANENT COMMISSION

To be Major

Shalini Vasudeva (MS-13662-F) (MR-07982-A), AMC—25 Mar 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.07.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manvinder Pal Singh Marwaha (MS-13420-Y) (MR-08009-K), AMC—18 Jul 2002

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.04.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

(Mrs.) Amita Jain (MS-13571-X) (MR-07994-P), AMC—12 Jan 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.01.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ravinder Singh Rawat (MS-13823-Y) (MR-07995-X), AMC—16 Jan 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Jan 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anupam Ghosal (MS-13440-M) (MR-08004-L), AMC—26 Feb 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.01.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Suresh Kumar Shukla (MS-13683-X) (MR-08010-Y), AMC—07 Apr 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Capt

Capt (Km) Rupam Kumari (MS-07740-X), AMC—04 Mar 2003

Capt Vijay Bohra (MS-07883-X), AMC—04 Jan 2004

Capt Rakesh Sharma (MS-07898-A), AMC—04 Jan 2004

Capt Kamlesh Kumar Singh (MR-07900-M), AMC—04 Jan 2004

Capt Jyoti Kumar Sinha (MR-07913-K), AMC—19 Jan 2004

Flt Lt to be Sqn Ldr

Niroj Kumar Tripathy (AF-24727-G) (MS-13772-W) (MR-07980-P), AMC—31 Dec 2002

GP Capt ( & equivalent) to be AIR CMDE (& equivalent)

HR Arora (MR-04182-W) (AF-24712)—01 Jul 2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2003

MK Mishra (MR-03813-F) (AF-20951)—23 Jun 2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Apr 2003

M. SRIVASTAVA  
Maj Gen  
Addl. DGAFMS

No. 43, dated 27th December 2004—The President is to make the following promotion under AI 37/78 as amended vide AI 04/96:—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

Lt to be Capt

DR-10539X Rohit Sharma, 27 Sep 2002

DR-10540M Divakar Garg, 10 Oct 2002

DR-10541P A Chakranarayan, 10 Nov 2002

PARAMJIT SINGH  
Maj. Gen.  
Addl DGDS

## AIR FORCE

No. 44, dated 28th December 2004—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE  
ACCTS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Irfan (22824) wef 17 Jan 2004

S. SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3 (D)

No. 45, dated 28th December 2004—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE  
AE BRANCH

To be Substantive WG CDR (Select)

ML Gahlot (14184) AE(M), 01 Jun 1994

(His name will appear between WG CDRS PS Samuel (14154) AE(L) and R Seth (14187) AE (M) in the Gradation list.)

## EDN BRANCH

To be Substantive WG Commander (Select)

K Singh (17082) EDN, 25 Jun 2001

## AE BRANCH

To be Substantive GP Capt

M L Gahlot (14184) AE(M), 09 Dec 2001

(His name will appear between GP Capts C Kurian (14153) AE(L) and P K Srivastava (14160) AE (L) in the Gradation list.)

S K SHUKLA  
Dy. Director of Personnel (Officers) 2 (B)

## (ARMY BRANCH)

No. 46, dated 28th Dec 2004—The president is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 04.12.2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date undr AI/ 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)  
(PERMANENT COMMISSION)

To be Flt Lt (On Prob)

Niroj Kumar Tripathy (AF-24727) (MS-13772-W) (MR-07980-P), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 31 Dec 1998. (MoD notification published in the Gazette of

India dated 23 Sep 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the under mentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 18 Aug 2003 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Shalini Vasudeva (MS-13662-F) (MR-07982-A), AMC 25 Sep 1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 25 Mar 1997. [This includes 30 months ante date for Post Graduate qualification (PG Diploma in Obst. & Gynae) which will count for pension not for gratuity] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Jan 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

(Mrs.) Amita Jain (MS-13571-X) (MR-07994-P), AMC 12 Jan 1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 12 Jan 1997. [This includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification [MS (Gen Surgery)] which will count for pension not for gratuity] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23 Sep 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Lt Anil Kumar (MS-14130-N) (MR-07987-Y), AMC 18 Jan 2001 (On completion of Internship Training promoted to the rank of Capt w.e.f. 18 Jan 2001) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 29 Jun 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ravinder Singh Rawat (MS-13823-Y) (MR-07995-X), AMC 16 Jan 1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 16 Jan 1997. (This includes 24 months of antedate of seniority for Post Graduate Qualification [MD (Medicine)] which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the under mentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 21 Jan 2004 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Anupam Ghosal (MS-13440-M) (MR-08004-L), AMC 26 Feb 1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 26 Feb 1997. [This includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification [MS (Ophthalmology)] which will count for pension not for gratuity] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23 Sep 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Suresh Kumar Shukla (MS-13683-X) (MR-08010-Y), AMC 07 Oct 1999 with seniority for pay and promotion

w.e.f. 07 Apr 1999. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ajay Kumar Dabas (MS-14058-H) (MR-08012-K), AMC with seniority for pay and promotion wef 13 Dec 2000. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 29 Jun 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manvinder Pal Singh Marwaha (MS-13420-Y) (MR-08009-K), AMC 18 Jan 1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 18 Jul 1998. [This includes 06 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Jan 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt (On Prob)

George Koshy (MS-14332-P) (MR-08011-F) (75761-H) AMC, with seniority for pay and promotion wef 29 May 2001 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Jan 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Changamayum Premchand Singh (MS-14189-N) (MR-08008-F) (75731-R), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 10 Jan 2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

M SRIVASTAVA

Maj. Gen.

Addl. DGAFMS

No. 47, dated the 27th December 2004.—The President is pleased to permit the undermentioned Officer to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 07 May 2004 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Capt Anup Siddana Gowda Sanna Gowdar (DR-10576L), 07 May 2004 with seniority for pay, promotion & pension from 11.03.2002.

PARAMJIT SINGH

Maj Gen

Addl DGDS

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 48, dated the 24th December 2004.—In Government

of India, Ministry of Defence Notification No. 110 dated 13 February 2004 published in the Gazette of India Sr. No. 11 dated 13 March 2004, under heading 'REGULAR ARMY', 'Infantry', The Jat Regiment is hereby amended as under:—

*For :*

Hav Surender Singh (No. 3172213F now JC-489354H),  
01 Sep 2003

*Read :*

Hav Surender Singh (No. 3172213F now JC-489360W),  
01 Sep 2003

*For :*

Hav Clk Radha Krishnan Nair J (No. 3176844F now JC-489355L), 01 Sep 2003

*Read :*

Hav Clk Radha Krishnan Nair J (No. 3176844F now JC-489361Y), 01 Sep 2003

*For :*

Hav Clk Mahaveer Prasad Yadav (No. 3176856W now JC-489356N), 15 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

*Read :*

Hav Clk Mahaveer Prasad Yadav (No. 3176856W now JC-489362F), 15 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 49, dated the 24th December 2004.—In the Ministry of Defence Notification No. 288 dated 20 May 2004 published in the Gazette of India Serial No. 24 dated 12 Jun 2004 under heading 'Regular Army' Sub heading "Infantry" The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Naib Subedar

*For :*

Hav Gyan Singh (No. 14906230M now JC-419916X), 13 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

*Read :*

Hav Gyan Singh (No. 14906203M now JC-419916X), 13 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

(GS Branch)

#### CORRIGENDUM

No. 50, dated the 24th December 2004.—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No. 21 published in Gazette on 25 May 2002 under heading "Territorial Army" Sub heading 'Territorial Commission' is hereby amended as under:—

*For :*

Lt Mithul Sharma (TA-42434), Infantry—24 Sep 1999

*Read :*

Lt Mithul Sharma (TA-42434), Infantry—29 Sep 1999

M L SHARMA  
Under Secy.

#### PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

#### CORRIGENDUM

No. 51, dated the 27th December 2004.—In the Gazette of India, Ministry of Defence, Notification No. 537 dated 18 Jun 1998 published in the Gazette of India dated 25 Jul 1998 under the heading 'Permanent Commission (Special List)' in the Regular Army is hereby amended as under:—

*For :*

4265366N Hav Manidhon Singha (SL-4505N), Lt, QM

*Read :*

4265366N Hav Ph Manidhon Singha (SL-4505N), Lt, QM

ARVIND KUMAR  
Maj  
DAMS 8B